

26th September, 2022

To,
General Manager
The Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai
Maharashtra 400001

Subject

: Newspaper Cutting -Form DPT 1 Circular or Circular in the form of

Advertisement inviting unsecure deposit.

Company Code: 540728

ISIN

: INE327G01032

Dear Sir,

With reference to above captioned subject, please find herewith Newspaper advertisement for Form DPT-1 Circular or Circular in the form of advertisement inviting unsecured deposit published in 'Business Standard' English edition and in 'Jai Hind' Gujarati edition dated 19th September, 2022.

Kindly take the same on your record and acknowledge receipt.

AHMEDABAD

Thanking You,

For, Sayaji Industries Limited

(Rajesh H. Shah) Company Secretary &

2,11,8LW

Sr. Executive Vice President

Encl.: As Above

(वी अधीना कायाजी कवाम क3 (३) (का प वामनव माहिती (वी) कंपनीयां वाम, शरणामुं, वेदावायर तथ (वी) कंपनीयां वाम, शरणामुं, वेदावायर तथ (वी) कंपनीयां अधीनकरणामं त्योग (वी) कंपनीयां अधीनकरणामं तथका कंपनायं वो। तथा कंपनीयी शरणामां काया कंपनायं वो। तथा कंपनीयी शरणामां काया कंपनायं वो। तथा कंपनीयां अधीनकरणामं तथ्का वो। तथा वी। महेता वो शरणामं पी। महेता वो। तथा वी। महेता वो। तथा कंपनायं वो। तथा वी। महेता वो। तथा कंपनायं वो। तथा कंपनायं वो। तथा कंपनायं वो। तथा कंपनायं वो। तथा वामना वा। तथा विते नव, कंपनायं वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। तथा विते नव, वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा विते वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वो। तथा वा। तथा वा। तथा विवाभी वा। तथा वा। वे। तथा वा। तथा वा। वा। तथा वा। वे। तथा वा। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वे। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वे। तथा वा। तथा वा। तथा वा। तथा वा। वे। तथा वा। तथा वा। वा। वा। वा। वे। तथा वा। वा। वा। वा। वा। वा। वा। वे। तथा वा। वा। वा। वा। वा। वा। वा। वा। वे। त	हीं सा : भी. जो. कवपाड, मेहार भोडक्ट्स, E-mail : maize@sayajigroup. क्षेत्रंत क्षेत्र डीपोशीट क्षेत्रंत क्षेत्र डीपोशीट क्षेत्रंत क्षेत्र डीपोशीट क्षेत्रंत क्षेत्र डीपोशीट क्षेत्रंत क्ष्मा क्ष्मा के तथा कंपलीला हर तथा काला संपर्वती विज्ञतो क्षेत्र व्यावकार्य क्ष्मावती क्ष्मा कंपलेली विज्ञतो, को कृष्म तो क्ष्मा कंपलेली विज्ञतो, को कृष्म तो क्ष्मा कंपलेली विज्ञतो, को कृष्म तो क्ष्मावत्म , पंचवती, कोविकदित्य, कालावाद-अ क्ष्मावत्म , रेक्ष तो, क्ष्मावाद-अ क्ष्मावत्म , रेक्ष ता, क्ष्मावाद-अ क्ष्मावित्म , रेक्ष ता, क्ष्मावाद-अ क्ष्मावत्म , रेक्ष ता, क्ष्मावत्म , रेक्ष ता, क्ष्माव्य-अ क्ष्मावत्म , रेक्ष ता, क्ष्माव्य-अ क्ष्मावत्म , रेक्ष ता, क्ष्माव्य-अ क्ष्मावित्म , रेक्ष ता, क्ष्माव्य-अ क्ष्मावित्म , रेक्ष ता, क्ष्माव्य-अ क्ष्मावित्म , रेक्ष ता, क्ष्मावित्म , क्ष्मावाद-अ क्ष्मावित्म , रेक्ष ता, क्ष्मावित्म , क्ष्मावाद-अ क्ष्मावित्म , रेक्ष ता, क्ष्मावित्म , क्ष्मावाद-अ क्ष्मावित्म , क्ष्मावित्म , क्ष्मावित्म , क्ष्मावाद-अ क्ष्मावित्म , क्ष्मावित्म , क्ष्मावित्म , क्ष्मावाद-अ क्ष्मावित्म , क्ष्मावित्म , क्ष्मावित्म , क्ष	ात - Website : 1 PT-1 suncered Hidel (Shuhile स्वीकारवास suncered Hidel (Shuhile स्वीकारवास suncered Hidel (Shuhile स्वीकारवास jost 1-64 we s Email : maize zool 'n-aquist), o'uni den Hurry woo olly wise de soo just qui de soo oo oo oo surveen, bineriui-3 co oo oo gel sui gel s	शेल : +eq क्ट २२००५५८१ **********************************	४(९) रहते भीउक्ट्स, का ite: www. १४३० माते का १४३० माते १४३० माते १४३० माते १४३० माते १४४० माते	मध्यपाद-३८५४३० вауаjigroup.in गोवा शुक्तिकार्थ क्ष्मा गोवा शुक्तिकार्थ क्षमा गोवा शुक्तिकार्थ श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक	(d) 6 9 2 0 (el) 9 (dl) 9 (dl) 6 (dl) 6 (el)	स्थाना तारणानी हुंही विज्ञतो प्रजीला डिसेंडरडे, जियोशको तथा काला KMP कोली डिपोग्री प्रजाशां डिसेंडरडे, जियोशको तथा काला KMP कोली डिपोग्री प्रजाशां डिसेंग्रीड धारकोशी कावाग होया तो तेली कारार काले वि अपिती द्वारी डिपोग्रीड कारकोशी कावाग होया तो तेली कारार काले वि अपिती द्वारी डिपोग्रीड कारकोशी विज्ञते अपिती द्वारी डिपोग्रीड कारकोशी प्रोमीड धारकोशी हुव संक्षा योग्रीड धारकोशी हुव संक्र	ો આવો લાભ (ગતો, (લ કું કું કું કું કું કું કું કું કું કું	ધરાવતા નથી શરતોને આ ૩૧ માર્ચ, ૨૦ વર્ષ ગાળા ૧/૧ દુલ સ્પિકારેલ એક વર્ષ માટે હ ધ્યોગીટની ૨૭	ાં. કિલાગ્ર છે, જે લાભ ાંદિન તેઓને મળો છે. - ૧૨૧ સુધીમાં ફા. ૨૮૮૬ જો કા માટે જુદી જુદી હ - ૧ ફા. ૧૮૮૬. રૂપ લાખ. - ૭%, બે વર્ષ માટે ૮% પેપરીક્ત વ્યાપ્યતી ૨૭મ શુ જુદિ વ્યાપ્યતી ૨૭મ શુ ૧૦૧૦-૨૫ ૧૮૬૯. ૩૩	श्चन्य सामान्य डिपो	र्कंपतीला शेर धारको स मणया पात्र छे, कोषण्या सूठ बसेब लवे वी करवामां अस्पेब लावी. (कृषिया बाजम
(क्षेप्रभीता काष्टाली क्षण क3(६)(क्षण काष्टाली क्षण क3(६)(क्षण कर्मण्याली क्षण क3(६)(क्षण कर्मण्याली क्षण्याल त्याल कर्मण्याली क्षण्याल त्याल कर्मण्याली क्षण्याल क्	भवेंदात ढारा डीपोजीत हे तथा काना संपर्वती विज्ञती हे तथा कोना संपर्वती है तथा संपर्वती है तथा कोना संपर्वती है तथा संपर्वत	DPT-1 वापकारचा मार्केला (डीपोजीट स्पीकारचा मार्केला (डीपोजीट स्पीकारचाल प्राच्या करुक्कीण है होर्ला : +०९ कर कर्म हिम्मार्था : न०९ कर कर्म होर्ला : +०९ कर	सरकबुबर ii) लिखमो, २०५४ला लिखम हेमीहेड पो. जो. ठडवाडा - गेवम २६०१४८५ - ८५ இक्रमुशांgroup.in - Websi १८६४	भोडेडब्रुश, वा ito: www. itso mid un s, देशक्रीण भोल s, देशक्रीण भोल smooth store, soft कंपनीजी जा क्रांग्यित कंपनीजी कंपनीजी संख्या कंपनीजी	मध्यपाद-३८५४३० вауаjigroup.in गोवा शुक्तिकार्थ क्ष्मा गोवा शुक्तिकार्थ क्षमा गोवा शुक्तिकार्थ श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक	(a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	मान्य डीपोशीर धारकोबी भवाग होग तो तेनी मरार मने वि ज्यार्डनी व्यारी डिपोशीरनी विजतो ज्यार्डनी व्यारी डिपोशीरनी विजतो प्राप्ति व्याराज संदर्भत स्विकारेख दुल २०भ प्रथ्मीर धारकोजी दुल संभवा बोशीर धारकोजी दुल संभवा बोशीर धारकोजी दुल संभवा बोशीर धारकोजी दुल संभवा बोशीर धारक वसा वैपार्ड्स त्याराजी वेश २०व पत्ती ३२वामां आयो हो बीशीर धारक वसा वैपार्ड्स त्याराजी केश (सुक्शान) जी २०व ७२वेश प्रवेशानी कंपनीलां नक्षा (सुक्शान) जी २०व विज्ञान	ાં આવા લાભ (એવત). ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક	ધરાયતા નથી શરતોને આ 3૧ માર્ચ, ૨૦ વર્ષ ગાળા ૧/૧ દુલ સ્પિકારેલ એક વર્ષ માટે દે સ્પારીઓને ઉપ જ 3 ડેપોઝીટની ૨૭ હવા કોપ્યું સ્પાર્થ કેપાય સ્પાર્થ કેપાય ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક	ાં. કિલાગ્ર છે, જે લાભ ાંદિન તેઓને મળો છે. - ૧૨૧ સુધીમાં ફા. ૨૮૮૬ જો કા માટે જુદી જુદી હ - ૧ ફા. ૧૮૮૬. ફપ પેપરીક્ત વ્યાગ્યદ ઉપરાં - ૧૫ કે વ્યાપ્યની ૨૭મ શુ જીદ વ્યાપ્યની ૨૭મ શુ - ૧૮૧૯-૨૧ - ૧૮૬૯. ૩૩	રામાં સામાન્ય કિયો P. ૧૧ લાખ લાઈઓએ કિયોગીટની 4, ત્રણ વર્ષ માટે ૯%, ict ૭.૫% વ્યાપ વધાને કુકવવામાં ઇંપાની ઢારા પોઝીટ ધારક હારા ૧૯ — ૨૦૧૯–	हीर धारकोने मही तेवी रक्त स्विकत्तेवी है. रंपनीला शेर धारको है. रंपनीला शेर धारको है. रंपनीला श्रेर धारको है.
(व्यो) कंपानीय तथा, कारतामुं, वेद्यासाय तथा (व्यो) कंपानीय रायध्या तारीध्य (व्यो) कंपानीय रायध्या तारीध्य (व्यो) कंपानीय रायध्या तारीध्य (व्यो) कंपानीय रायध्या त्याध्य (व्यो) कंपानीय रायध्येक्टरमा तार्थ्य, कर्पानी त्याध्य (व्यो) तथा कंपानीयी रायध्या त्याध्य (व्या) कंपानीया रायध्येक्टरमा तार्थ्य, कर्पानीय (व्य) व्यापन त्याध्य व्यापन त्याध्य	(१(क) कात केवार कह तथा कंपालीता हर तथा कात्व शंपर्वती फिजतो तथा कात्व शंपर्वती फिजतो तथा कात्ववामां काव्यती काव्य कोजमीती फिजतो काव्य कोजमीती फिजतो, भी कृषि तो काव्यक्त, भीकवारी, भी कृषि तो काव्यक्त, भीकवारी, कोकिवारिक्य, काल्यवाद-3- किवारा", पंचवरी, कोकिवारिक्य, काल्यवाद-3- किवारा", पंचवरी, कोकिवारिक्य, काल्यवाद-3- काव्यक्ती, कोजीक्वारिक्य, काल्यवाद-3- काव्यक्ती, कोजीक्वारिक्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती, काव्यक्ती, कोजीक्वार- काव्यक्ती,	(डीपोजीह क्यीकारवाल व्याद्धा व्यक्तश्रीण है कोल : +०२ घ० व हिम्मावी : maize इत्तावी : maize इत्तवी : maize इत	ii) लिखमी, २०२४ला लिखम केवीटेड पो. सो. ७६वाडा - मेळा २००१५८५ - ८५ डिकाश्र्वांgroup.in • Websi १०१४ १०१४ - १०१४ - १०१४ १०१४ - १०१४ १०१४ १०१४ - १०१४ १०१४ - १०१४ १०१४ - १०१४ १०१४ - १०१४ १०१४ - १०१४ १०१४ - १०१४ १०१४	भोडेडब्रुश, वा ito: www. itso mid un s, देशक्रीण भोल s, देशक्रीण भोल smooth store, soft कंपनीजी जा क्रांग्यित कंपनीजी कंपनीजी संख्या कंपनीजी	मध्यपाद-३८५४३० вауаjigroup.in गोवा शुक्तिकार्थ क्ष्मा गोवा शुक्तिकार्थ क्षमा गोवा शुक्तिकार्थ श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक	3. 00 (01) 00	આદિની લાકો કિપોગીરતી વિગતો આદિની લાકો કરમ પ્રોગીર લોજના અંતર્ગત સ્વિકારેલ કુલ રકમ કેજ દર પ્રેગીર ધારકોની કુલ સંખ્યા પ્રોગીર ધારકોની કુલ સંખ્યા પ્રોગીર ધારકોની સુવાદી / તેના વાજની સૂકવાદી બચાવા તેને ત પ્રપા સૂકવાદીની સૂકની વિગત પ્રોગીર ધારક લાક ઉપાર્શત વાજની કોઇ રકમ થતી કરવામાં આવી હો નીની નામાંકિય પરિસ્થિતિ વિગત કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કરવેશ લાદની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ	્રા વ ક ક કગલી હિ ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક ક	3૧ માર્ચ, ૨૦: વર્ષ ગ્રાળા ૧/૧ દુલ સ્પિકારેલ મેઠ વર્ષ માટે લ ક્યારિઓને ઉપ પ્યાપ્તિ ક્યારિઓને સ્ક ક્યારિઓને સ્ક ક્યારિઓને સ્ક ક્યારિઓને સ્ક ક્યારિઓને સ્ક ક્યારિઓને સ્ક ક્યારિઓને સ્ક્	ભ્યર શુધીમાં ફા. ૨૮૮૬ જો ક્લા માટે જુદી જુદી હ ક ફા. ૨૮૮૬. સ લાખ છ%, બે વર્ષ માટે હ પ્રેમ કે વ્યાપની ૨૭મ સ્ જીત વ્યાપની ૨૭મ સ ૧૮૧૯-૨૧ ૧૮૬૯. ૩૩	લારીખોએ કિયોગીટર્ન ક, ત્રણ વર્ષ માટે ૯%, તેત ૭.૫% વ્યાપ વધાને કુકવવામાં કંપની ઢારા પોઝીટ ધારક ઢારા જ - ૨૦૧૯-	र्कंपतीला शेर धारको ह मणाया पात्र छे, कोधपक्ष सूठ बसेव लही वी करवामां कार्यस तही. (कृषिया वाला
(व्यो) कंपानीय तथा, कारतामुं, वेद्यासाय तथा (व्यो) कंपानीय रायध्या तारीध्य (व्यो) कंपानीय रायध्या तारीध्य (व्यो) कंपानीय रायध्या तारीध्य (व्यो) कंपानीय रायध्या त्याध्य (व्यो) कंपानीय रायध्येक्टरमा तार्थ्य, कर्पानी त्याध्य (व्यो) तथा कंपानीयी रायध्या त्याध्य (व्या) कंपानीया रायध्येक्टरमा तार्थ्य, कर्पानीय (व्य) व्यापन त्याध्य व्यापन त्याध्य	કર તથા રાહ્યા સંપર્કની વિગતો તારા વાયાવવામાં કરાવતો વારા વાયાવવામાં કરાવતો વારા વોકનોની વિગતો, ત્રે ફોશ તો કરાવામાં, ડીન અને દોશાની વિગતો. ક્રિત્યાલ", પંચવડી, એક્સિકિય, અમદાવદ-3- ક્રિત્યાલ", પંચવડી, એક્સિકિય, અમદાવદ-3- ક્રિત્યાલ", પંચવડી, એક્સિકિય, અમદાવદ-3- ક્રિત્યાલ", પંચવડી, એક્સિકિય, અમદાવદ-3- ક્રિત્યાલ, અને ક્રિસ્તુની વીલાની પાછળ, ત્રેક્યુર ક્રેસ્ટ્રેસેડેનમી, વાતનેય, અમદાવદ-3-c over. ક્રિસ્ત્રાસ, એક્સિક્સિય, અમદાવદ-3-c over. ક્રિત્યાલ, સેડિસ્સ્તુને વિલાન ક્રિસ્ત્ર, ક્રિસ્ત્રાલ, ક્રિસ્ત્રાલ ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રાલ ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્રલ, ક્રિસ્ત્ર	कावार्त्र एक्टबर्ग्हीय (के)ला : +00 फ र ह Email : maized उठावी रक्ताव्या : maized उठावी रक्ताव्या : maized उठावी रक्ताव्या : काले तेली कालाव्या : काले तेली कालाव्या : क	क्रिकेड घो. चो. escusi - मेळा १९०१६८९ - ८५ இकाश्रींgroup.in - Websi १९०१ १९०१ १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ १९४६ - १९४६ - १९४६ १९४६ - १९४६ - १९४६ चूं दिलाहत वरे थे. कंप्रतीय हाला हो हो. चंप्रती काळा, २०२३ वर्गत हो हो. चंप्रती काळा, २०२३ वर्गत हो हो. चंप्रती हि. १९४६ - १९४६ वर्गी ही. चंप्रती हि. चंप्रतीय हो हो १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ - १९४६ १९४६ - १९	भोडेडब्रुश, वा ito: www. itso mid un s, देशक्रीण भोल s, देशक्रीण भोल smooth store, soft कंपनीजी जा क्रांग्यित कंपनीजी कंपनीजी संख्या कंपनीजी	मध्यपाद-३८५४३० вауаjigroup.in गोवा शुक्तिकार्थ क्ष्मा गोवा शुक्तिकार्थ क्षमा गोवा शुक्तिकार्थ श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक्ष अंत्रकार्य श्रीक	(di) an (di) (di) (di) (di) (di) (di) (di) (di)	ગાઉનો ભાઈ રુગમ પ્રેમીટ લોજના અંતર્ગત સ્વિકારેલ કુલ રુગમ કજ દર પ્રેમીટ ધારુઓની કુલ સંખ્યા પ્રેમીટની પરત ચૂકવણી / તેના વાજની ચૂકવણી કચાવા તેને તે ક પણ ચૂકવણીની ચૂકની વિગત પ્રેમીટ ધારુ હારા ઉપાર્શત વાજની કોક રુગ થતી કરવામાં આવી હો નીની નામાંકિય પરિસ્થિતિ વિગત કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રુગ કરવેશ ભાદની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રુગ કરવેશ ભાદની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રુગ	्र व च च च च च च च च च च च च च च च च च च च	વર્ષ ગાળા ૧/વ વુલ સ્પિકારેલ એક વર્ષ માટે ક્યારીઓને ઉપ ક્યારીઓને ઉપ ક્યારીઓને ઉપાય વ્યારીઓને ઉપાય વ્યારીઓને સ્થારીઓને સ્થારીઓન	થ/3ના માટે જુદી જુદી . 1 રૂં!. ૨૮૮૬. રૂપ લાખ. ৬%, દો વર્ષ માટે ૮% પ્રેરોક્ત વ્યાજદર ઉપરાં અમે કે વ્યાજની ૨૭મ યું જુદિ વ્યાજની ૨૭મ ઉપ ૧૯૧૯-૨૫ ૧૯૮૭-૩૩	લારીખોએ કિયોગીટર્ન ક, ત્રણ વર્ષ માટે ૯%, તેત ૭.૫% વ્યાપ વધાને કુકવવામાં કંપની ઢારા પોઝીટ ધારક ઢારા જ - ૨૦૧૯-	र्जपतीना शेर धारको स मणया पात्र छे, कोषपक्ष सूठ क्रवेल नव वी करवामां कार्येल नावी (कृषिया वाका
(वी) वंधानीनी श्वापना लाग्नेल (वी) वंधानीन को वंधानीनी पेडा वंधानी ताल वंधानीनी शामाकाो कावण के कंधानी पेडा वंधानी ताल वंधानीन शामाकाो कावण के कंधानी ताल वंधानीन शामाकाो कावण के कंधानीन शामाकाो कावण के कंधानीन ताल कंधानीन	ો હારા વાલવામાં કાળવતો લવા એકલોની વિગતો, જો ફોલ તો કાળાક", પંચાવી, સેવિસફિલ્ય, સમદાવાદ-3 કિલ્લાક", પંચાવી, સેવિસફિલ્ય, સમદાવાદ-3 કિલ્લાક", પંચાવી, સેવિસફિલ્ય, સમદાવાદ-36 કાર સેવિકેલી, વાલવેય, સમદાવાદ-36 વપ્ય. કાર સેવિકેલી, વાલવેય, સમદાવાદ-36 વપ્ય. કાર સેવિકેલી, સેવેલા કેવેલ, કેવાલા કીલ વપ્ય, રોડ તો, લેવ્લા કિલ્લા, કેટલાલા, કે વિસ્તાર, સેટેલાલ્ટ, સમદાવાદ-36 વપ્ય. કાર સોસાલાી, સેટેલાલ્ટ રોડ, સેવ્યુર સોસાય કાર સોસાલાી, સેટેલાલ્ટ રોડ, સેવ્યુર સોસાય વિસ્તાર, સેટેલાલ્ટ, સમદાવાદ-36 વપ્ય. કાર સોસાલાી, સેટેલાલ્ટ રોડ, બેલ્ડ સોસાય કાર સોસાલાી, સેટેલાલ્ટ રોડ, બેલ્ડ સોસાય વિસ્તાર, સેટેલાલ્ટ, સમદાવાદ-36 વપ્ય. કાર સોસાલાકો સાથેલ્ટ સર્વા કર્યા કર્યા કર્યા કરતા કર્યા કરતા કરતા કરતા કરતા કરતા કરતા કરતા કરત	उन्हों पानांट्य हैं व्यक्ति के स्वाप्त कर कि स्वाप्त कर के स्वप्त कर कर के स्वप्त	જરુવાનું (૧ - ૮૫) કુંક્રિકાયું (૧ - ૧૫) કિંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કિંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કુંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કુંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કુંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કુંસ્યું (૧ - ૧	ito: www. १४३० चाते का १, डेक्ट्रींग स्रोत १, डेक्ट्रींग स्रोत १, डेक्ट्रींग स्रोत १, डेक्ट्रींग स्रोत १०००	sayajigroup.in પરેલા યુનિસમાં કટા તેલાયુરે, હોમ્પ્રેડીએ કોમ્પ્ર પ્રકુલ, લેપ્ટ કોમ્પ્ર પ્રકુલ, લેપ્ટ તોથે પ્રાથસની હોમ, દર્શિય પ્રેર હોમ, દર્શિય પ્રેર હોમ, દર્શિય પ્રેર હોમ, દર્શિય પ્રકલ્ય હોમ, દર્શિય પ્રકલ	(d) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S	પોઝીટ થોજના અંતર્ગત સ્વિકારેલ કુલ રકમ કજ દર પોઝીટ ધારકોની કુલ સંખ્યા પોઝીટની પરત ચૂકવણી / તેના વાજની ચૂકવણી અથવા તેને ત ઇ પણ ચૂકવણીની ચૂકની વિગત ડેડીટ ધારક હાશ ઉપાર્જુત વાજની કોઇ રકમ થતી કરવામાં આવી હો નીની નામાંકિય પરિસ્થિતિ વિગત કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કરવેશ લાદની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કિવીકન્ક	्र व च च च च च च च च च च च च च च च च च च च	વર્ષ ગાળા ૧/વ વુલ સ્પિકારેલ એક વર્ષ માટે ક્યારીઓને ઉપ ક્યારીઓને ઉપ ક્યારીઓને ઉપાય વ્યારીઓને ઉપાય વ્યારીઓને સ્થારીઓને સ્થારીઓન	થ/3ના માટે જુદી જુદી . 1 રૂં!. ૨૮૮૬. રૂપ લાખ. ৬%, દો વર્ષ માટે ૮% પ્રેરોક્ત વ્યાજદર ઉપરાં અમે કે વ્યાજની ૨૭મ યું જુદિ વ્યાજની ૨૭મ ઉપ ૧૯૧૯-૨૫ ૧૯૮૭-૩૩	લારીખોએ કિયોગીટર્ન ક, ત્રણ વર્ષ માટે ૯%, તેત ૭.૫% વ્યાપ વધાને કુકવવામાં કંપની ઢારા પોઝીટ ધારક ઢારા જ - ૨૦૧૯-	र्जपतीना शेर धारको स मणया पात्र छे, कोषपक्ष सूठ क्रवेल नव वी करवामां कार्येल नावी (कृषिया वाका
(वी) वंधली काले वंधलीजी पेता वंधली जार वंधली जार वंधलीजी परणावाणे सावाया प्रवेश तथा वंधलीजी परणावाणे सावाया प्रवेश तथा वंधलीजी परणावाणे सावाया प्रवेश तथा वंधलीजा कालेक्ट्र वंधलीजा कालेक्ट्र वंधलीजा कालेक्ट्र वंधलीजा वंधलावा वंधलीजा वंधलावा वंधलावा पेता सहेता "वोधील जियार वंधलीजा वंधलावा वंधलावा पेता सहेता परणावा वंधलावा पेता सावाया परणावा वंधलावा परणावा वंधलावा व	ક્યારા એકલોની વિગતો, જો ફોસ તો કોલ્યા એકલોની વિગતો. ક્રિલ્યાર", પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર", પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર્થ, પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર્થ, સેલીકેલી, વ્યવસે, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, વ્યવસે, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, વ્યવસે, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કર્યા કેલીકેલી, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા	उन्हों पानांट्य हैं व्यक्ति के स्वाप्त कर कि स्वाप्त कर के स्वप्त कर कर के स्वप्त	જરુવાનું (૧ - ૮૫) કુંક્રિકાયું (૧ - ૧૫) કિંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કિંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કુંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કુંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કુંક્સ્યું (૧ - ૧૫) કુંસ્યું (૧ - ૧	ito: www. १४३० चाते का १, डेक्ट्रींग स्रोत १, डेक्ट्रींग स्रोत १, डेक्ट्रींग स्रोत १, डेक्ट्रींग स्रोत १०००	sayajigroup.in પરેલા યુનિસમાં કટા તેલાયુરે, હોમ્પ્રેડીએ કોમ્પ્ર પ્રકુલ, લેપ્ટ કોમ્પ્ર પ્રકુલ, લેપ્ટ તોથે પ્રાથસની હોમ, દર્શિય પ્રેર હોમ, દર્શિય પ્રેર હોમ, દર્શિય પ્રેર હોમ, દર્શિય પ્રકલ્ય હોમ, દર્શિય પ્રકલ	(S)	ાજ દર મોઝીક ધારકોની કુલ સંખ્યા મોઝીકની પરંત ચૂકવણી / તેના વ્યાજની ચૂકવણી અથવા તેને હ ૫ પણ ચૂકવણીની ચૂકની વિઝાત મોડી ધારક હાઇ ઉપાર્કુત વ્યાજની કોઇ રકમ પતી કરવામાં આવી છે નીની નામાંદિય પવિસ્થિતિ વિઝાત કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કિવીકન્ક	हिं अप के के कि	કુલ સ્પિકારેલ મેક વર્ષ માટે હ જા કેપોઝીટની સ્ક કેપોઝીટની સ્ક માવી કોઇ ઉપાણ સ્વ-સ્વ-સ્સ પ્લ-પ્લ	ા ફા. સ્ટ.૮૬. રૂપ લાખ. છ%, બે વર્ષ શહે ૮% પેરોક્ત વ્યાજદર ઉપરાં છમ કે વ્યાજની ૨૭મ સ્ ર્જીત વ્યાજની ૨૭મ ઉપ ૧૦૨૦-૨૧ ૧૦૨૦-૨૧ ૧૮૬૭. ૩૩	 ત્રશ વર્ષ માટે ૯%, ત્રશ વાજ વધાને હુકવવામાં કંપની ઢારા પોઝીટ ધારક ઢારા જ વર્ગ વર્ષ કરાવ કરાવ 	र्कंपतीला शेर धारको ह मणाया पात्र छे, कोधपक्ष सूठ बसेव लही वी करवामां कार्यस तही. (कृषिया वाला
(वी) वंधार्तीय को वंधार्तीयो पेदा वंधार्ती द्वारा वंधार्ते तथा वंधार्तीयो पाणावाणे कावाया वंधार्ते तथा वंधार्तीयो पाणावाणे कावाया वंधार्ते तथा वंधार्तिया वंधार्तिय व	ક્યારા એકલોની વિગતો, જો ફોસ તો કોલ્યા એકલોની વિગતો. ક્રિલ્યાર", પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર", પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર્થ, પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર્થ, સેલીકેલી, વ્યવસે, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, વ્યવસે, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, વ્યવસે, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કર્યા કેલીકેલી, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા	उठारी प्रश्नासुखारी, वंधारी तीना प्रेयाप्त प्र काले तेनी ताम क्षाय प्र काले तेनी तामाय्य प्र काले तेनी तामाय्य प्र काल प्रश्नास्त्र क्षाय प्रान्त केंद्र काले क्षाय प्रमान केंद्र काले क्षाय प्र केंद्र काले क्षाय प्रमान क्षाय केंद्र काले क्षाय प्रमान क्षाय काल प्रमान काले काल	૧૯૪૧ હેઠવ્યું છે છેવાડાં, અમદાવાદ-3-c? ડિક્સ્ટ્રેસ છેવાડાં, રેસ્ટ્ર્ટ્રોમ એનલાડ્યુરેમ મધી વેપી હે, મેકાગ ઓપલ, મેલમ હો ઉત્પાદન હવે છે. હેપનીલી શા લી છે. હંપની લાલો, ૨૦૧૩ અંત તેલ. એલ. પી., જે જુદા જુદા પ્રકાર હતી ઉપજના ઉત્પાદન તથા લે-વેર કર્મના હેવલ અને માર્ગદર્શન હેઠળ અને વેરસેન લી મીલમ દી. મર્તન તે એઠગીકચૂટીવ ડાયરેલ્ટરલી વિ	1830 ખાતે છો ત, ડેક્સુટ્રોમ કોઇ, ક ઓદ્યા કેંત્ર, ખાવતો ચુંડાદા, ના હાક્યુંડિક દ તાના વાવસાય ઉપનીનું સેવા , એક્ઝીલ્યું ઉપનીન સેવા ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગપતિ કોંગ્રેન્ટર ચેંત્રને ક્લોગપતિ કોંગ્રેન્ટર ચાર્ચક્ર ચાર્યક્ર ચાર ચાર્યક્ર ચાર્યક્ર ચાર્યક્ર ચાર્યક્ર ચાર્યક્ર ચાર્યક્ર ચાર	ायेवा युक्तिकां कार मेक्साईट, कोश्तिकी मेस्टर अपूरत, मेस्टर जीवे अस्पत्ती कीर और, धीन्य जेत साथे तंत्रकारोब से कार्यक्रिकी कार्यक्रकी कार्यक्रकी कार्यक्रकी कार्यक्रकी कार्यक्रकी कार्यक्रकी कार्यक्रकी कार्यक्रकी कार्यक्रकी	(S)	ાજ દર મોઝીક ધારકોની કુલ સંખ્યા મોઝીકની પરંત ચૂકવણી / તેના વ્યાજની ચૂકવણી અથવા તેને હ ૫ પણ ચૂકવણીની ચૂકની વિઝાત મોડી ધારક હાઇ ઉપાર્કુત વ્યાજની કોઇ રકમ પતી કરવામાં આવી છે નીની નામાંદિય પવિસ્થિતિ વિઝાત કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની રકમ કિવીકન્ક	हा विश्वास का क्ष्म के किया का किया का किया किया किया किया किय	એક વર્ષ માટે (ન્યશિઓને ઉપ જ 3 કૈપોઝીટની સ્ક વ્યા કોઇ ઉપણ સ્વ-સ્સ્	છ%, તો વર્ષ માટે ૮% પૈપરોલત વ્યાજદર ઉપરાં કમ કે વ્યાજની રહમ સુ વર્ષત વ્યાજની રહમ ડિપ ૧૦૧૦-૨૧ ૧૦૧૦-૨૧ ૧૦૧૦-૨૧	6, ત્રણ વર્ષ માટે 6%, id ૦.૫% વ્યાપ વધાને કુકવવામાં કંપની ઢારા પોઝીટ ધારક ઢારા જ - ૨૦૧૯-	भगवा पात्र हो, ठोवपश सूठ सबेव तर वी ठश्वामां भावेव तावी (३पिशा वाजन
(डी) कंपनीला मेलेफ्योलकार शायाचा शायाचा हा स्थाप हो हिंदी कंपनीला मेलेफ्योलकार सिमार करनामां, करनामां	ક્યારા એકલોની વિગતો, જો ફોસ તો કોલ્યા એકલોની વિગતો. ક્રિલ્યાર", પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર", પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર્થ, પંચાવી, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 ક્રિલ્યાર્થ, સેલીકેલી, વ્યવસે, સોલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, વ્યવસે, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, વ્યવસે, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કેલીકેલી, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા કર્યા કેલીકેલી, સેલિયાફિલ્ય, લકાદાવાદ-3 તે કર્યા	वार्त (नवी (तामान्य) वार्त (नवी (तामान्य) वार्त (नवी (तामान्य)) वेत कार्ज प्राथ (वार्त प्रेत कार्ज प्राथ (वार्त प्रेत कार्य (तामान्य) वार्त (तामान्य) (રેપીઈ ગુલ્લેગા, ઠેલાટ્રોગ બેનાકાણ્યુંગા. જો પેવી છે, તેલાગ ઓપણ, હેવાગ જુ હિલ્લાહતા કરે છે. કંપનીક્રી જાત જુ હિલ્લાહતા કરે છે. કંપનીક્રી જાત તેલા એલ.પી., બે જુદા જુદા પ્રકાર. સતી ઉપયુખા ઉત્પાદના તથા લે-દે પ્રતાના તેમન અને માર્ગાદર્શન હેઠણ સત્ના તેમન અને માર્ગાદર્શન હેઠણ સાને એલ્ડાગિલ્યુટીય ડાયરેલ્ટરથી હિ	ક, કેસફોઇ મોત કું ઓર્ટ્સ કેંઠ, ખાઓ તુંહાર, નગેત કંપનીની તા હાઇપ્રિંક c સના વાવસાય પંખીનું કોલ પંખીનું કોલ વ્યવસાય હિલોગપતિ હિલોગપતિ હિલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ	तेहास्ट्रेंट, कोश्तरिहें, संग्राज अपूर्वता, तेश लवीदिव्ही तथा लीवे प्रभावती तीय, तीया घोत साथे संश्राचेत्र को संग्राच कंपतीला टीव अध्येक्टरवी त्रा संग्राचे हैं। जिल्ला	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	મેટીટની પરત ચૂકવણી / તેના વ્યાજની ચૂકવણી અથવા તેને તે ૪ પણ ચૂકવણીની ચૂકની વિગત પ્રેટીટ ભારત હામ ઉપાર્જુત વાખની કોઇ ૧૭૫ પતી કરવામાં આવી હો તીની નામાંડિક પરિસ્થિતિ વિગત કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની ૨૭૫ કરવેશ ભારતી કંપનીનાં નફા (સુકશાન) તી ૨૭૫ કિવીકન્ક	91 1931ती डि 18 तो तेनी विशत अधा	જા કેપોઝીટની સ્ક કેપોઝીટની સ્ક વિ કોઇ ઉપણ વ્ય-સ્સ સ્ય-સ્સ	પરકિત વ્યાજદર ઉપરાં કમ કે વ્યાજની રકમ રૂ જીત વ્યાજની સ્ક્રમ ડિપ ૧૦૨૦-૨૧ ૨૮૬૯.33	ાંત ૦.૫% વ્યાજ વધારે મુકવવામાં કંપની હારા પોઝીટ ધારક હારા જ - ૨૦૧૯-	भगवा पात्र हो, ठोवपश सूठ सबेव तर वी ठश्वामां भावेव तावी (३पिशा वाजन
(ए) कंपलीला उत्यरेक्टरमा लाग, सरमाण, उत्यरेक्टरमुं लाग करनाणुं वो प्रीयम की. महेला ''कीपील जिपका वो प्रीयम की. महेला ''कीपील जिपका वो प्रियम के. महेला के. सामाण का.अ. के. सामाण के. सामाण का.अ. का.अ. के. सामाण का.अ. के. सामाण का.अ. के. सामाण का.अ. का.अ. के. सामाण का.अ.	नियाल", पंकावी, क्रेतिकादिग, कामधावाह-3 नियाल", पंकावी, क्रेतिकादिग, कामधावाह-3 नियाल", पंकावी, क्रेतिकादिग, कामधावाह-3 शे शोकावाही, क्रेतिकृति वीताली पाकरा, पोतपुर होत्र देवीडेक्सी, कास्त्रेप, कामधावाह-3co ovx. हार क्रोशावाही, क्रेतिकादिग, कामधावाह-3co ovx. हार क्रोशावाही, क्रेतिकादिग, कामधावाह-3co ovx. हार क्रोशावाही, क्रेतिकादिग, कामधावाह-3co ovx. हार क्रोशावाही क्रेतिकाद्व क्रांत्रिय, क्रेतिकाद्व, हार क्रोशावाही क्रेतिकाद क्रांत्रिय, क्रिताह, हार क्रोशावाही क्रेतिकाद क्रांत्रियाह-3co ovx. । अरले संख्यावाही क्रांत्रिय क्रांत्रियाह-3co ovx. । अरले संख्यावाही क्रांत्रिय क्र	वर्ता (विश्व व्यक्त के व्यक्त के अपने प्रथ प्राप्त कर्म के व्यक्त के अपने प्रथ प्रथा के किया प्रथा कर्म के विश्व प्रथा के किया किया के किया के किया के किया के किया किया के किया किया के किया के किया किया किया के किया के किया के किया किया के किया किया किया के किया किया किया किया किया कि	ायो पेपी है, मेहाज जोकत, मेहाज बुं Geuten de है. : अंधानीता पात्री हो छे. : अंधानी उनायटो, २०१३ खंत होता जेस औ. पे. पुटा पुटा अवार स्वाती प्रेम्पका विश्वासन तथा खे-येर होता लेसा काले आगार्धासन देवका खाले बेराओन थी जीवाग ठी. महेता होता लेसा काले काले होता होता होता होता हो हाले बेराओन थी जीवाग ठी. महेता होता लेसा काले होता होता होता होता होता होता होता होता	ा कोवण है ठ, गणका में ठुंठा है, नगर्त वे प्रचानी मान्य है ज़ुर्ज है, नगर्त वे प्रचानी मान्य है ज़ुरुज है जा जावसाय के प्रचानी से व्यवसाय के प्यवसाय के प्रचानी से व्यवसाय के प्	भेगा अपुरत, भेगा जावीहरूबी तथा जीवीहरूबी तथा जीवी अभावीली अपित अपुरत अप	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	મેટીટની પરત ચૂકવણી / તેના વ્યાજની ચૂકવણી અથવા તેને તે ૪ પણ ચૂકવણીની ચૂકની વિગત પ્રેટીટ ભારત હામ ઉપાર્જુત વાખની કોઇ ૧૭૫ પતી કરવામાં આવી હો તીની નામાંડિક પરિસ્થિતિ વિગત કરવેશ પહેલાની કંપનીનાં નફા (સુકશાન) ની ૨૭૫ કરવેશ ભારતી કંપનીનાં નફા (સુકશાન) તી ૨૭૫ કિવીકન્ક	91 अभागती (3 वा तो तेजी विभात अधा २० २० २०	૪૩ ક્યોઝીટની સ્ક ાવી કોઇ ઉપણ સ્વ-સ્સ -પ્ય-પ્ય	9भ दे प्याशनी २७भ यू र्जुत प्याशनी २७भ डिप १०२०-२१ २८४६.33	યુકવવામાં કંપની ઢારા પોઝીટ ધારક ઢારા જ - ૨૦૧૯-	ठोषपश यूठ ससेव नव वी ठ२वामां कायेव नवी (३पिया वामा २०
(ए) कंपलीला उत्यरेक्टरमा लाग, सरमाण, उत्यरेक्टरमुं लाग करनाणुं वो प्रीयम की. महेला ''कीपील जिपका वो प्रीयम की. महेला ''कीपील जिपका वो प्रियम के. महेला के. सामाण का.अ. के. सामाण के. सामाण का.अ. का.अ. के. सामाण का.अ. के. सामाण का.अ. के. सामाण का.अ. का.अ. के. सामाण का.अ.	नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३० सेविकादी, कोदीकृति वीलाजी धाकपत, नेवापुर ३० सेविकेकी, कामदेग, कामधावाह-3- ३० कप्पः अन्य कोशावादी, कोविकादिग, कामधावाह-3- ३० कप्पः जिल्लाम", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कर्मावाद-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कोशपुर सोकार अन्य सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३० सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३	केवावाचा भारते साथारी येवा पंचाविका हो. ५. साधातु सीव्यूम स्वायु सीव्यूम स्वित्यूम स्वायु सीव्यूम स	થી છે. કંપની કલાઇ, ૨૦૧૩ સાંત કેલ એલ પી., જે જુદા જુદા પ્રકાર આ ઉપજવા ઉત્પાદન તથા લે-વેર રહેલા તેજા અને આગદિવન તેજા સાત્રે લેસ્કોન થી પ્રીચ્ચ છી. મહેર હતે એક્ઝીક્યુટીય કાથરેક્ટરક્ષી વિ	ार्गत वंपनीजी जा हामपुंड १ सजा व्यवसाय वंपनीजी संख्या वंपनीजी संख्या वंपनीजी संख्या व्यवसाय हिंदोजपति हिंदोजपति हिंदोजपति हिंदोजपति हिंदोजपति हिंदोजपति	নীথ মদান্তানী মীখ, গোন্ধ খাব মাথ বহুগাৰু ট ভোল হ'বলীলা টিল হাইগাৰু ট লো বালাগাৰ টিল গাল বালাগাৰ টিল গাল বালাগাৰ টিল গাল বালাগাৰ টিল গাল বালাগাৰ বালাগাৰ গাল বালাগাৰ বালাগাৰ বহুগাৰ বালাগাৰ বালাগাৰ বহুগাৰ বালাগাৰ বালাগাৰ	(છ) કિર મ. કંપા એ. બી-વ બી-વ	 च्या युव्यालामं युव्यां विकात तिकात कार्या प्रेपार्यंत व्यापनां कोत्र रक्त्य पत्ती करवामां कार्या को तीनी नावांतिक परिश्चित विकात क्यरेश परेवानां कंपनीनां नक्ता (बुक्तान) नी २६२४ करवेश वाद्यां कंपनीनां नक्ता (बुक्तान) नी २६४४ विविक्तः 	य तो तेनी विशत अध २०: २०:	વી કોઇ ઉપાટ સ્વ-૨૨ પ૮. પવ	श्रुत व्यापनी २५भ डिप २०२०-२१ २८४६.३३	पोजीड धारक द्वारा <i>पर</i> - २०१६-	ी કરવામાં આવેલ નાવી (३पिया वाफा
(१) कंपनीला उच्छोकरका लाग, शक्तामं, उच्छोकरका लाग, शक्तामं, उच्छोकरका लाग, शक्तामं, वा प्रकार के प्राथमं वी प्रीक्षण की महेला "कोपील जिपका वी विश्वण भी महेला "कोपील जिपका वी विश्वण भी महेला "कोपील जिपका वी उच्छाका के स्थाप के स्थापनी श्रीका उंगे, अध्वापनी श्रीका की महेला की प्रकार की स्थापन के स्थापनी श्रीका के स्थापन की स्	नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३० सेविकादी, कोदीकृति वीलाजी धाकपत, नेवापुर ३० सेविकेकी, कामदेग, कामधावाह-3- ३० कप्पः अन्य कोशावादी, कोविकादिग, कामधावाह-3- ३० कप्पः जिल्लाम", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कर्मावाद-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कोशपुर सोकार अन्य सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३० सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३	च्याच्यु चीठ्य व चित्रवाल कोत वातमः चार्यं के वातमः चर्यं के वातमः चरं के वातमः चर्यं के वातमः चर्यं के वातमः चर्यं के वातमः चर्यं के वा	ચાર્તી ઉપયંજના ઉત્પાદન તથા હો-વેર કંકતા હોવ્ય અને માર્ગદર્શન હેઠળ આતે વેરમેના વી પ્રીચામ છી. મહેન તો એઠઝીકચુદીય કાયરેક્ટરથી વિ	થાના વ્યવસાય જંપનીનું સંચ મ, એક્ઝોક્યુ સ્થાલ પી. મહે વ્યવસાય ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગપતિ કોક્સ્ટ કોક્સ્ટ ચોક્સ્ટ ચોક્સ્ટ કોક્સ્ટ ચોક્સ્ટ ક્લાલ પી. મહે	सावे संज्ञानेत से विका रूपनीता दीव डायरेक्टरबी ता संभाजे छे, डील ०००३०६३३ ००६००७३४	(%) (\$\frac{1}{2}\).	ोतीर कारत क्षारा प्रिपाद्वित व्यापनी कोष राज्य पती उरवानां साची को तीनी नाशांकिय परिस्थिति विजय उरवेश पर्वेतानी उंपनीनां नहां (चुठशान) नी राज्य उरवेश पर्वेतानी उंपनीनां नहां (चुठशान) नी राज्य विवोडन्ड	90-	42.49	२०२०-२ १ २८१५.33	- 2026-	(३पिया वाज्य
(१) कंपनीला उच्छोकरका लाग, शक्तामं, उच्छोकरका लाग, शक्तामं, उच्छोकरका लाग, शक्तामं, वा प्रकार के प्राथमं वी प्रीक्षण की महेला "कोपील जिपका वी विश्वण भी महेला "कोपील जिपका वी विश्वण भी महेला "कोपील जिपका वी उच्छाका के स्थाप के स्थापनी श्रीका उंगे, अध्वापनी श्रीका की महेला की प्रकार की स्थापन के स्थापनी श्रीका के स्थापन की स्	नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३० सेविकादी, कोदीकृति वीलाजी धाकपत, नेवापुर ३० सेविकेकी, कामदेग, कामधावाह-3- ३० कप्पः अन्य कोशावादी, कोविकादिग, कामधावाह-3- ३० कप्पः जिल्लाम", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कर्मावाद-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कोशपुर सोकार अन्य सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३० सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३	वर्षित क्षीर उध्ययेक्य मेर्नेस्त्रेत अध्ययेक्य क्षेत्रेस्त्रेत अध्ययेक्य क्षेत्रेस्त्रेत अध्ययेक्य क्षेत्रेस्त्रेस्त्र क्षांस्त्र स्थाप्त क्षांस्त्र स्थाप्त क्षांस्त्र स्थाप्त क्षांस्त्र स्थाप्त क्षांस्त्र स्थाप्त	ार्जवा बेल्प काले मार्ज्यहर्यत हैंडल काले बेरलेज की ओक्स की. महेरत ले केडजीक्युद्धीय उम्बरेक्टरबी हि	ઇપનીનું સંચ મા, એક્સીક્યુ રેવાલ પી. મહે લ્લાવસાથ કિલોગપતિ કિલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ કેલોગપતિ	(अल र्डंपलीला) दीव डायरेंड्टरबी त्या संवाको छे. डील ०००३०१३३ ००६००७३४	8. 5'41 8), 01-9	नीनी जागांतिक परिस्थिति विज्ञत करवेश पर्वेतानी अंपनीनां नक्षा (चुक्शान) नी २७३१ करवेश राजनी अंपनीनां नक्षा (चुक्शान) नी २७३१ विवीडन्ड	90-	42.49	२०२०-२ १ २८१५.33	- 2026-	(३पिया वाज्य
कार्यकेक्ट्रम्तुं ताम वी प्रीवाम जी. महेला वी प्रवास पी. महेला वी प्रवास पी. महेला वी प्रवास पी. महेला वी प्रवास पी. महेला वी. जीरांजकार है. हामाव डी. जीरांजकार है. हामाव डी. जीरांजकार है. हामाव डी. जीरांजकार है. हामाव डी. के. बोरांजकार है. हामाव वी प्रवास पी. महेला वी ते. पर है. वी कार्यात लारेकारों कांडा पर, हैहे हामाव दार्थ पार्थित कार्यक्र कार्या अल्वे ट्रामां वार्थित कार्यक्रमा अल्वे। कार्यक्रमा वार्थ कार्यक्रमा अल्वे। कार्यक हम्माव वार्थ कार्यक्रमा अल्वे। कार्यक हम्माव वार्थ कार्यक्रमा कार्यक हम्माव वार्थ कार्यक हम्माव वार्य कार्यक हम्माव वार्यक हम्माव वार्य कार्यक हम्माव वार्य कार्यक हम्माव वार्य कार्यक हम्	नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३० सेविकादी, कोदीकृति वीलाजी धाकपत, नेवापुर ३० सेविकेकी, कामदेग, कामधावाह-3- ३० कप्पः अन्य कोशावादी, कोविकादिग, कामधावाह-3- ३० कप्पः जिल्लाम", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कर्मावाद-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कोशपुर सोकार अन्य सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३० सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३	(०००५	તે એઠઝીકયુટીય કાયરેક્ટરથી વિ	વેશાલ પી. મહે વ્યવસાય ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગપતિ કોક્સ્ટ કોક્સ્ટ ચાર્ટર્ડ	डील ०००३०६३३ ००६००७३४	oll-9	કરવેરા પહેલાની કંપનીનાં નણ (નુકશાન) ની રકમ કરવેરા ભાદની કંપનીનાં નણ (નુકશાન) ની રકમ ડિવીકન્ડ	96	46.49	₹८9€.33		50
कार्यकेक्ट्रम्तुं ताम वी प्रीवाम जी. महेला वी प्रवास पी. महेला वी प्रवास पी. महेला वी प्रवास पी. महेला वी प्रवास पी. महेला वी. जीरांजकार है. हामाव डी. जीरांजकार है. हामाव डी. जीरांजकार है. हामाव डी. जीरांजकार है. हामाव डी. के. बोरांजकार है. हामाव वी प्रवास पी. महेला वी ते. पर है. वी कार्यात लारेकारों कांडा पर, हैहे हामाव दार्थ पार्थित कार्यक्र कार्या अल्वे ट्रामां वार्थित कार्यक्रमा अल्वे। कार्यक्रमा वार्थ कार्यक्रमा अल्वे। कार्यक हम्माव वार्थ कार्यक्रमा अल्वे। कार्यक हम्माव वार्थ कार्यक्रमा कार्यक हम्माव वार्थ कार्यक हम्माव वार्य कार्यक हम्माव वार्यक हम्माव वार्य कार्यक हम्माव वार्य कार्यक हम्माव वार्य कार्यक हम्	नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- नियान", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३० सेविकादी, कोदीकृति वीलाजी धाकपत, नेवापुर ३० सेविकेकी, कामदेग, कामधावाह-3- ३० कप्पः अन्य कोशावादी, कोविकादिग, कामधावाह-3- ३० कप्पः जिल्लाम", भंकपदी, केविकादिग, कामधावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कर्मावाद-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, क्रमावाह-3- ३०, कार्माकण होड, वेडन होड, कोशपुर सोकार अन्य सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३० सेवावाह-अंडन कार्मावाह-3- ३० सेवावाह-3- ३	८० ००५. ८० ००५. धाररस्ता, साम्रात्यार-३ ता, मार्गारायाती, ८० ००५. त. मुंराय-४०००३४ व्याद्मियरेग्-५०००३४ व्याद्मियरेग-५०००३४		Surcial Surcial Surcial Surcial Sucial Sucial	05860838 00600838 00030633	oll-e	करवेश भारती कंपनीमां बक्त (बुक्शान) ती २७भ डिवीडन्ड	96			(498.3	u)
वर्ष प्रीवाम की. महेला "क्रीवील जियान की व्यवस्थ थी. महेला "क्रीवील जियान वर्ष वर्ष था थी. महेला की व्यवस्थ थी. महेला के. हावाव के. हावाव के. हावाव की. जीरांजालाता की. हेवाव के. हावाव के. हावाव की. जीरांजालाता की. हेवाव के. हावाव के. हावाव की. जीरांजालाता की. हेवाव की. वर्ष के. कारांजाला को. हेवाव की. वर्ष के. कारांजाला कारांजाला की. हेवाव की. वर्ष के. कारांजाला होते की. परण, में होवाव के. वर्ष की. हेवाव करेंग की. वर्ष के. वर्ष की. हेवाव की. वर्ष के. वर्ष की. हेवाव की. वर्ष की. हेवाव	निवास", पंचवती, क्रेतिकादिए, कामधावार-३- निवास", पंचवती, क्रेतिकादिए, कामधावार-३- । क्रोतावार्त, पंचवती, क्रेतिकादिए, कामधावार-३- । क्रोतावार्त, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-०० वर्ष, । क्रातावार्त, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-०० वर्ष, । क्रातावार्त, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-०० वर्ष, । निवास", पंचवती, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-००, कामधावार अंतिकादिए, क्रातावार्त, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-००, कामधावार, क्रेतिकाद्य, क्रातावार-३-००, वर्ष, । क्रात्त क्रेतिकाद्य क्रातावार-३-००, वर्ष, । क्रात्त क्रातावार-३-००, वर्ष, । क्रातावार	८० ००५. ८० ००५. धाररस्ता, साम्रात्यार-३ ता, मार्गारायाती, ८० ००५. त. मुंराय-४०००३४ व्याद्मियरेग्-५०००३४ व्याद्मियरेग-५०००३४		Surcial Surcial Surcial Surcial Sucial Sucial	05860838 00600838 00030633	oll-e	ßवीses		60.00			
वी वर्षण थी. सर्वटा वी विश्वार थी. सर्वटा वी विश्वार थी. सर्वटा वी जीरांजावार ते. हवावर है. पर्वाठावार ते. हवावर है. परवाठावार ते. हवावर हों से. परवाद वर्षण वेंद्रावर हों परवाद वर्षण वर्षण वर्षण विद्रावर हों परवाद वर्षण वेंद्रावर हों परवाद वर्षण वर्षण वर्षण वेंद्रावर हों परवाद वर्षण वेंद्रावर हों परवाद वर्षण वर्षण वर्षण वर्षण विद्रावर हों परवाद वर्षण वेंद्रावर हों परवाद वर्षण वेंद्रावर हों परवाद वर्षण वेंद्रावर हों परवाद वर्षण वर्	निवास", पंचवती, क्रेतिकादिए, कामधावार-३- निवास", पंचवती, क्रेतिकादिए, कामधावार-३- । क्रोतावार्त, पंचवती, क्रेतिकादिए, कामधावार-३- । क्रोतावार्त, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-०० वर्ष, । क्रातावार्त, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-०० वर्ष, । क्रातावार्त, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-०० वर्ष, । निवास", पंचवती, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-००, कामधावार अंतिकादिए, क्रातावार्त, क्रेतिकादिए, कामधावार-३-००, कामधावार, क्रेतिकाद्य, क्रातावार-३-००, वर्ष, । क्रात्त क्रेतिकाद्य क्रातावार-३-००, वर्ष, । क्रात्त क्रातावार-३-००, वर्ष, । क्रातावार	८० ००५. ८० ००५. धाररस्ता, साम्रात्यार-३ ता, मार्गारायाती, ८० ००५. त. मुंराय-४०००३४ व्याद्मियरेग्-५०००३४ व्याद्मियरेग-५०००३४		ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગપતિ કડક્ટર રક્કાર ચાર્ટર્ડ	00600038		हण्डरस्ट स्परंत इंसीय)		.00%	90.00%	0.00	0)
वी विश्वास थी. अवेटा डी. गीरांजकार हे. हमारा डी. शे. कोरांजकार हे. हमारा डी. शे. कोरांजकार हे. हमारा डी. शे. कोरांजकार हे. हमारा डी. हमारांजिक स्थान अवि विने-२२. ह डी हिन्दर आगीरिक स्थान अवि विने-२२. ह डी हमारांजिक स्थान करना अवेटा विश्वास आगीरिक स्थान हमारांजिक हमारांजिक हमारांजकार हमा	निवास", पंचयती, केविकादिए, समहावाद-3-6 वार वेद्युवे वीवाजी प्रस्त्रपत, केविकादी, केदीकूर्त वीवाजी प्रस्त्रपत, केविकादी, केदीकूर्त वीवाजी प्रस्त्रपत, केविकादिकारी, बावतेष, स्वकादावाद-3-6 वर्षा, स्वव्याच्याची, तेविकादिक्ष, समहावाद-3-6 वर्षा, निवास , केविकादिक्ष, समहावाद-3-6 वर्षा, केविकादिक्ष, समहावाद-3-6 वर्षा, तेविकादी, केविकादिक्ष, स्वव्याचाद-3-6 वर्षा, तेविकादी, केविकाद्य, समहावाद-3-6 वर्षा, तिकादा, केविकाद्य, समहावाद-3-6 वर्षा, तेविकाद्य, सेविकाद्य, समहावाद-3-6 वर्षा, तेविकाद्य, सेविकाद्य, समहावाद-3-6 वर्षा, तेविकाद्य, सेविकाद्य,	८० ००५ सारश्क्ता, कासहायाह-3 - सारश्क्ता, कासहाय		કાર્ક્ટ કરેલાઇ કોક્સ્ટર કોક્સ્ટર સ્ટિક્ટર	05560688		them our of the transfer	3.6		3.90	0,50	
डी. शीरांजाकाय थे. हावाव २, कण्याती शीरा हो. प्रभावकाय डी. हेवाव २, कार्यती शीरा डी. प्रभावकाय डी. हेवाव २, कार्यती शीरा डी. प्रभावकाय डी. हेवाव २, कार्यती शीरा डी. होता डी.	ો શોશખાદી, એરીસ્ટ્રો વીલાલી પાછળ, બેઠ્યુટ્ટ દેશ રેલીકેલ્લી, લાલેપ, લાલદાલાદ-૩૮૦ વપ. see લોલાવાદી, લેક સી. એલ. વિદ્યાલવાદી પાછલ -૩૮૦ વપ. નિલાલ", પંચવદી, એરિસાહિજ, લાલદાલાદ-૩૮ -૨૨, લાલંજન લોક, પેકર રોક, વબલાલા હીલ પાપ, રોક નાં કે, લેબારા હિલા, ક્રિટરાલાદ, (વિસ્તાર, સેટેલાલ્ટ, લાલદાલાદ-૩૮૦ વપ.) અન્ય સ્ટે આવાદ, લાલદાલાદ-૩૮૦ વપ.) અન્ય સ્ટે એલાલ્ટ, લાલદાલાદ-૩૮૦ વપ.) અન્ય સ્ટે એલાલ્ટન સંસ્થાનિયાદ સ્ટેલ વ્યવસ્થ, હિકાસ માટે આવલ્યાદ ભીઓલિક સાન વ્યવસ્થ નીનાનો દૂર સ્ટના માટે સા	कारकता, कामहायाह-3 ११, कांकायाडी, १० ००६. १, मुंका-४०००३४ कांक्रीयहेश-५०००३४ पद्मी सामे,		કોક્ટર કોક્ટર ચાર્ટર્ડ			चेव्हा त्रश वर्षना जोडीह बबेहा सस्पैयामां जताव्या मुक्क विजत	जी अंपनीनी संक्षीप न				(विविद्या साम
हो. प्रचावनाया डी. देशाय १९, केरीदेश रेखे. को. को. वीर-आपाया हो. व. व्यावकेष्ट को. का. का. का. का. का. का. का. का. का. का	in રેલીકેન્કી, વાલોપ, કામદાલાદ-૩૮૦ વપ. કર શોષાવાદી, રોક શી. એત. વિદ્યાલવાની પાછલ -૩૮૦ વપ. ક્લિકા", પંચવદી, એલિસફિજ, કામદાલાદ-૩૯ -૨૮, કમાં કંકલ શેક, ડેકર રોક, કબલાલા હીલ પ્રખ્ય, રોક તાં. કે, લંભારા હિલ્લા, હિંદરાહાદ, પં વિસ્તાર, હેટેલાઘટ, કામદાલાદ-૩૮૦ વપ. ક્લિકાર, હેટેલાઘટ, કામદાલાદ-૩૮૦ વપ. કબ્પ સુપે સંચાલકનોએ લાખ રચ્ચ અતે ફિલ્સો પંચાલત હિંકરા માટે આવશ્યક ભીગોલિક શાન પંચાલત હિંકરા માટે આવશ્યક ભીગોલિક શાન પંચાલત હિંકરા માટે આવશ્યક ભીગોલિક શાન પંચાલત હિંકરા મોટે આવશ્યક ભીગોલિક શાન પંચાલત હિંકરા મોટે આવશ્યક ભીગોલિક શાન પંચાલત હિંકરા મોટે આવશ્યક ભીગોલિક શાન	ण, कांश्यादाडी, १० ००६. १, मुंशय-४०००२४ कांग्रीप्रदेश-५०००२४ पदी सामे,		डोक्टर बार्टर्ड			Read			39 भार्च, २०२१	३९ भार्थ, २०२९	34 1418, 6050
श्री. थो. व्यवस्था व्यवस्था वर्णा व	ાર લોગાવાદી, રોક શી. એત. વિદ્યાલવાની પાછલ -૩૮૦ ૦૧૫. ા-૩૮૦ ૦૧૫. ૧-૩૮ ૦૧૫. ૧-૩૮, કમાંજિંગ્લ દીક, પૈકર રોક, કમ્બાલા હીલ ૧૫૫. રોક તં. કે, લંભારા હિલ્લા, હૈદરાબાદ, ⁽¹ વિસ્તાર, હૈદેલાલ્ટ, કામાદાલ-૩૮૦ ૦૧૫. 1 મન્લે સંખાલ મંડળનું વલા : ૧૫૫ મું સંભાવક સંભી લાગ્ય છા છે. ગોલા કરવા માટે સા ૧૫૫ માટે લાગ્ય સાથે આવશ્યક ભીગોલિક સા ૧૫૫માં, ૧૧૫૬, ઓરલ, ૧૫૫માં, ૧૫૫માં, ૧૫૫માં, ૧૫૫માં, ૧૫૫૬, ઓરલ, ૧૫૫માં, ૧૫૫માં, ૧૫૫૬, ઓરલ, ૧૫૫માં, ૧૫૫માં, ૧૫૫માં, ૧૫૫૬, અપેલક, ૧૫૫માં, ૧૫૫માં, ૧૫૫માં, ૧૫૫૬, અપેલક, ૧૫૫માં, ૧	ण, आंश्यादाडी, १० ००५. १, युंधार-४०००२४ आंद्रीयेरी-५०००२४ वर्धी सामे, १एका। अर्देवाव सुक्षण संस्	1 000	ચાર્ટર્ડ	00080658	Q. (a))	जोन करंड कोशेड्स प्रोपर्टी, प्यान्ट अने एक्वीपमेन्ट					
कोम. साक स्थापन प्रशासन कर स्थापन कर स्थापन कर स्थापन कर स्थापन कर स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था	-३८० ०५६. जिल्लाम", पंचारती, केविकादिक, कामहायाद-३८२२. जार्मांकच होऊ, पेडर रोड. करवाया दीव १६५., होई तो. डे. वांकारा विल्ला, केंद्रशाह, वांचाया १६८ तो होई तो डे. वांचारा होई तो होई रात्रीया १६८ तो होई तो होई तो होई तो होई तो होई तो होई १६८ तो होई तो है होई तो होई तो होई तो होई तो है	00 009. १, मुंजाए-४०००२४ आर्क्सिटेश-५०००३४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८	1 (06		ozususes	(oil) (eil)	કેપીટલ વર્ક છત પ્રોગ્રેસ			336.69	80633.09 686.64	90064.50 658.60
वाला वाला विकास कर वाला कार्या कर वाला कार्या कर वाला कार्या कर वाला कार्या कार्य कार्या कार्य कार	-३८० ०५६. जिल्लाम", पंचारती, केविकादिक, कामहायाद-३८२२. जार्मांकच होऊ, पेडर रोड. करवाया दीव १६५., होई तो. डे. वांकारा विल्ला, केंद्रशाह, वांचाया १६८ तो होई तो डे. वांचारा होई तो होई रात्रीया १६८ तो होई तो होई तो होई तो होई तो होई तो होई १६८ तो होई तो है होई तो होई तो होई तो होई तो है	00 009. १, मुंजाए-४०००२४ आर्क्सिटेश-५०००३४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८	1 60 6		00089866	(\$1)	अधर एन्टेन्जुटाब मेसेह्स क्षायनान्धीयल मेसेह्स			9.09	98.04	33.90
वी च्याचीय वागान वा सामि स्थेन २२. व वी च्याचीय वागानी वा सामि से. १६%, १६% वा सामि से. १६% वा से. १	-२०, कार्माणक होड, पेडर रोड, करनावा तीव १५७१, रोड ले. डें, वंश्वश किया, डेंहराताह, ' १५७१, रोड ले. डें, वंश्वश रोड, शोधपुर सोसाय विस्तार, सेडेतायह, घामधालाः-३८० ०१. प्रेरतीर, सेडेतायह, घामधालाः-३८० ०१. प्रत्ये संख्याका भेडलां व्याप्त कर्म कर्म करना १८० व्याप्त कर्म क्षेत्र करना / क्षेत्र करना हमा मार्ड स १ प्रकात, तथाइ, औराक, ठा-१०, हमार्थ, रंग १ प्रकात, तथाइ, औराक, ठा-१०, हमार्थ, रंग	ત્ર, ગુંલઇ-૧૦૦૦૨૬ સાંક્રિપ્રેદેશ-૧૦૦૩૪ શરી સામે, લક્ષ્માના અહેવાલ મુજબ સંસ્ લક્ષ્માના અહિવાલ મુજબ સંસ્	1 800	sosoBrefe		(9)	धन्येस्टमेन्ट अधर क्रायनान्सीयव कोसेद्स			9933.38	660.69	658.54
की जिल्हा आपंजीत आहे ते. पण, में वाधार से आंजाता तरे संसंध्य राह पण, से वाधार से आंजाता जिल्हा तर से से वाधार से आंजाता जिल्हा तर से से वाधार से आंजाता तर से लिंदा करने, जम कार में अराजाता है आहे से लिंदा करने, कार कार में आंजाता करने पण कार मुख्या ता कर पण कार मान करी तो हों। होंगीओं वाधा करे कार से कार से से वाधार के मान से कार करने तो हों पर से कार	रक्ष, होड ते. डे. लंकश किंख, हैहरालाह, ' । वाब बोलाबरी, सेटेबाएट रोड, भीगुर सोलाह । किलाह, सेटेबाएट, कामप्रावा-300 गए. । अत्ये लंबावड मंडलाई ववार : काम इपे संबावडांको सापैव सर्वा जाते दिन्तीय राज्यत, दिनास मार्ड स्वारायक कीजोबिक व्या वाबेब लोजनो हुट करवा / कोशा करवा मार्ड सा प्रकार, तमार, जोराक, कामण, हवारतो, रंज	व्यक्तिस्थान्य स्थापन संस्थान स्थापन संस्थान स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप	1 60 6	ઉદ્યોગપતિ	00038885	(s)(s)	नोन करंड हेश गेसेट्स अधर नोन करंड गेसेट्स			950	99.00	139.69
व्यो काशीत अरेशसंब शाव स्था प्राप्त स्था कार्याचार से प्राप्त प्राप्त स्था कार्याचार से प्राप्त प्राप्त स्था प्राप्त से से स्था से उक्त प्राप्त साथ से उक्त से से सो से उक्त से	ावर सोसायरी, सेटेबावर रोड, भोगपुर सोधार विस्तान, सेटेबावर, वामग्रावर-३८० ०५५. 1 अल्ये संबावक मंडणानुं ववशा : व्यान तुपे संबावकोको सापेब सर्वा जाते दिन्तीय राजकत, दिकास माडे कावरणक कीजोबिक बा वर्षेब भोजनो दूर करवा / कोळा करवा माडे सा १ प्रकार्त, कायह, जोशक, कारणा, दावलो, रंज	पटी सामे, पद्यना अहेवाल मुग्ग्ल संस्	1 64. 0	व्यवसाविक	SEPARESO	1	टोटव जोन वरंट कोसेट्स करंद कोसेट	1 45 39 44		58408'RC	900.40	48944.30
(क्षेत्र) चेकावार्ता विवाद व्यवस्था अर्थते (राम) चौकावार्ता विवाद व्यवस्था अर्थते (राम) चौकावार्ता व्यवस्था अर्थते (राम) चौकावार्ता व्यवस्था अर्थते (राम) चौकावार्ता (राम) चौकावार्त्र (राम) चौकावार्त्	। विस्तार, सेटेबाघर, धामदाबार-३८० ०१५. । अत्ये संधावक मंडलतुं ववाध : मध्य पूर्व संधावकोओ समये सर्वा धाले विन्योप । धावत, विभास मारे धावस्थक श्रीओकि सा वर्षेत्र पोपनो दूर करवा / कोषा करवा मारे सा १ धनवा, कारा, धनेशक, काराव, दावलो, रंग	ાણના અહેવાલ મુજબ સંર નકળતા અનગર એન્સ		व्यवसायित.	93383309	(6)	20435705		1 1/10	AR84'R5	X030.93	8980,64
(સ્પેણ) યોગમાનાં સંદાગુત કરશો પ્રત્યે ક્યાં વાર્ષિક અહેવાલાન લાગ સં મંત્રાગલ લાકાડો, કરલા મહતા ત્રું સુધ્ય વાર્ષિક અહેવાલાન લાગ સં સં મંત્રાગલ લાકાડો, કરલા મહતા ત્રું સુધ્ય કરો છે. ત્રું સુધ્ય કરો કરો સ્વર્ધ કરો	। अत्ये संवावक मंडलातुं ववाचा : माग क्ये संवावकोको सामेव सर्वा अते विश्वेष स्वावत, विकास मार्ट सावस्थक क्येग्नोबिक सन् प्रापेव कोफाने हुए करवा / स्वावन करवा मार्ट स १ प्रगबा, कारफ, फोशक, कागण, हवाको, रंग	વસ્તાર કાલકાર કોનમ		व्यवसायिक	00000800	(gli)	क्षेत्रकान्सीयल मेसेट्स ट्रेड रीसीवेजल			4030.28		
भागण वाह्मा, रुपका भागमा गुकारवा / स्वाक्ट क्षेत्रित करतुं, भर्म वाह्मा महोता करून राष्ट्राते व क्षेत्रित करतुं, भर्म वाह्मा महोता कर प्रभव वाही शुकारवा वाला काम मामा मामा भागी करी विद्यार्थीय वाला कर्म मामा मामा भागी कर्म क्षेत्रीओं कार्य क्षम घरेल है. (शु) डिक्नेक्स विज्ञाती, ऐमां सामेश रुभ, (श) डिक्नेक्स कर्म तेनी विरुद्ध वाला (श) डिक्नेक्स कर्म तेनी विरुद्ध वाला (श) डिक्नेक्स कर्म तेनी विरुद्ध वाला (श) डिक्नेक्स कर्म तेनी विरुद्ध क्ष्म प्रवासीमां बुक, भे क्षेत्र ते क्ष्म प्रभाव कर्मा तारीण वी. डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेली प्रशास क्ष्म प्रभाव कर्मा तारीण वी. डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेली विरुद्ध वाला क्ष्म कर्मा कर्मा तारीण (श) प्रभाव कार्याद्ध कर्म तेना विरुद्ध (श) प्रभाव कार्याद्ध पर्यक्ष क्षमा विद्यार (श) प्रभाव कार्याद्ध पर्यक्ष महेला विरुद्ध (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विरुद्ध (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विरुद्ध (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विद्यार्थीय (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विरुद्ध (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विरुद्ध (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विरुद्ध (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विद्यार्थीय (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विद्यार्थीय (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विद्यार्थीय (श) डिपोटीट ठाक्स प्रभाव माहेला विद्यार्थीय क्षां	' खाउत, विकास मार्ट शावश्यक भीओलिक सार् गवित कोजमी दूर करवा / खोछ। करवा मार्ट सा १ पञर्जा, कापठ, जोराक, काञज, दवाओ, रंज	વસ્તાર કાલકાર કોનમ				(3)	हेश जेन्ड हेश छहवीचेबन्ड्स अधर जेंड जेबेन्सीस			90.96	98.64	33.40
वासता क. क्यांकाक भड़ता प्रश्नांत्व प्रशासक वास्त्र के किया कर प्रश्नांत्र कर किया कर प्रश्नांत्र कर किया कर प्रश्नांत्र कर	ાવલ જોખમી દૂર કરવા / ઓછા કરવા માટે સા ! પગલાં, કાયક, ખોરાક, કાગળ, દવાઓ, રંગ	नुप्रपाता राजुसार राजम	ાલક મંડળે કંપનીને અસર કરતાં પ	પરિભળો જેવા	કે, સ્પર્ધામાં વધારો,	(x)	अधर क्रायनान्सीयत ओसेट्स			32.03	34.40	307.92
वंशवात करनु, जार्य व्यावका मार्तिता करने प्रभाव सार्वे गुणायण वाणा भावता भावती करी संगोगों कार्य कार्य प्रशेत थे. (श) डिक्रोक्टमी विग्नत, पेगो सम्मेत २०भ, (श) डिक्रोक्टमा कर्म तेनी प्रिप्श्च व्यावका (श) डिक्रोक्टमा कर्म तेनी प्रपन्न व्यावका (श) डिक्रोक्टमा कर्म तेनी प्रपन्न व्यावका (श) डिक्रोक्टमा कर्म तेनी प्रपन्न स्थाव क्ष्म वर्षा वर्षा कर्म तेनी प्रभाव क्ष्म प्रमाव कर्म तार्थिण वी. डिक्रोक्टमा प्रमाव कर्मा तार्थिण वी. डिक्रोक्टमा कर्म तार्थिण वी. डिक्रोक्टमा कर्म तार्थिण वी. डिक्रोक्टमा कर्म तार्थिण वी. डिक्रोक्टमा कर्म तार्थिण वी. (श) क्ष्म कर्म तार्थिण वी. (श) क्ष्म कर्म तार्थिण वी. (श) क्ष्म कर्म तार्थिण वी. विग्नित अक्ष त्याव वर्षणा विवाद क्ष्म क्ष्म कर्म तार्थिण वी. डिक्रोक्टमा कर्म तार्थिण वी. डिक्रोक्टमा कर्म तार्थिण विग्नित क्ष्म त्यावका (श) डिक्रोक्टमा व्यावका (श) डिक्रोक्टमा विग्न करवामी सुच्चित्र (श) क्ष्म तार्थिण विग्न करवामी सुच्च विग्न विग्न करवामी सुच्च विग्न विग्न करवामी सुच्च विग्न	ર પગલાં, કાયડ, ખોરાક, કાગળ, દવાઓ, રંગ	ારી કિંમત મેળવી શકાય	તે માટે નિકાસમાં વધારો, ઉચ્ચ ન	ei siidididi	વસ્તુઓ પર ધ્યાન	SIL	करन्ट देश ग्रेसेट्स (नेट) अधर करन्ट ग्रेसेट्स			93.99	96.69	929.03 890.35
वधानोमी वार्ष्णुक शर्बुद्र काल वोधानित्रक वेकको व बंगोमोर्स वार्ष्ण का बरेश हो. (१३) विक्रोबर्टनी विज्ञाती, पेमां साम्रेस स्वक्र, (१) विक्रोबर्टनी विज्ञाती, पेमां साम्रेस स्वक्र, (१) विक्रोबर्टनी विज्ञात कार्या आस्त्रीकी स्वक्र कार्या कार्य	less followed loca apiess foatisis feat	, उन्हें क्शानरी वगेरे शेव	ા વિવિદ્ય ઉદ્યોગ ક્ષેત્રોમાં પોતાના ઉ	ત્પાદનો આપવ	ા તેમજ ઓછા ભાવે		होटल ७२०ट खेशेट्स			99300.44	90344.96	No.05505
(अ) डिक्रोबर्टनी विज्ञतो, केमां सामेब २०भ, (१) विव्यक्तिक वाली (१) विक्रिय काली देनी विव्यक्त (वाली १) केमाव्यक विक्राय सामाविका र मुक्तवामां मुंक भी कीम तो अर्थ करामाव्यक सामाविका र मुक्तवामां मुंक भी कीम तो अर्थ करामाव्यक सामाविका र के वोर्थ करामाव्यक सामाविका र केमाव्यक सामाव्यक सामाव्य	क्थने वधारे सारी कने काधुनिक रीते भावशत	करवी थे कंपनीनी काव र	ખતે ભવિષ્યમાં વધનારી ઉત્પાદન ફ	કામલા માટે પૂરા	ती होय शेवा विविध	off.	દોટલ એસેટ્સ ઇકવીટી એન્ડ લાયાબીલીટીસ		-	30104.03	34048.65	33405.45
(१) विवाहन काली तो विवस्तु त्यार (२) डिजेक्सर काले तेली विवस्तु त्यार १३) कोमण्या केंक कालया लामाहित र मूक्त्यामीमां सूक, भो कोस तो २८ डीमोजीट कालर पाडला महिला परवाल को कोई क्लार पाडला महिला परवाल कराय परशर कर्या तारीमा वी. डिपोमीट कालर पाडला महिला विवस्त द्वारा कोल्ज करी राखे तेली विज्ञत (१) पाछला लामाहित्य वर्णला केला दिवसे डिपोमीट कांत्र पाडला महिला परिवस (३) डिपोमीट कांत्र पाडला महिला प्रश्न केला (३) डिपोमीट कांत्र महिलाली संहर सुक्त्या (१) डिपोमीट कांत्र महिलाली संहर सुक्त्या (१) डिपोमीट कांत्र महिलाली संहर सुक्त्या	(-) (((((((e)	ઇક્વીટી ઇક્વીટી શેર કેપીટલ					
(૩) કોમપ્પણ દોષ્ટ અલવા તાલાકિય ન પૂરુવાથીમાં યુરુ, એ હોય તો એ. કોમોમીર સ્થીમની વિગત એ. કોમોમીર દબકાર પાડવા માટેની પરવાન હેશ. ડિપોગીર દબકાર પાડવા માટેની પરવાન હેશ પાડાર કર્યા તારીમ શ્રી. (૧) કંપની કાયદા અને તિલમેતી સંતરો હારા એક્ઝ કરી શકે તેની વિગત (૨) પાડાવા નાશાંકિય વર્ષના કેલમ દિવસે ક્રિપોગીર અંતર વર્ષના કેલમ દિવસે ક્રિપોગીર અંતર વર્ષના સાથે પારિય આપ્યાના દિવસે કંપની પરિયત આપ્યાના દિવસે કંપની પરિયત્ર આપ્યાના દિવસે કંપની પારિય આપ્યાના દિવસે કંપની પારિય આપ્યાના દિવસે કંપની પારિય આપ્યાના દિવસે કંપની સારા એક્ઝ કરવાની સુધિ (૫) ક્રાયોગીર અંતર્ગત એક્ઝ કરવાની સુધિ (૫) ક્રાયોગીર હાલકર પાડવા માટેના નિયમોફામ			કંપનીએ બેંક અથવા અન્ય નાણી તથા તેનું વ્યાજ અથવા વેદાનિક વ			(off)	अधर वस्त्रीही			399.00	399.00	395.00
 डोपोगीट स्वीमली विश्वत वोर्ड कराय पास कर्या तारीण वोर्ड कराय पास कर्या तारीण विष्णोगीट अकार पारचा माहेली परचाल कराय पराश कर्या तारीण (१) कंपली अखार कर्या वार्णा / तारश व क्षारा कोळत करी शके तेली विश्वत (१) पामाणा लायांकिय वर्णला केवता दिवसे दियोगीट कांवर्जाली बुवा रक्ता (३) डिपोगीट अंवर्जाल क्षारा माहेला प्रिक्त कार्यामात दिवसे कंपली द्वारा कोळत करवाली सुधि (१) डिपोगीट कांवर्जाल कोळत करवाली सुधि (१) खावाला वार महिलाली खांटर सुकवा प्र (१) डिपोगीट करवार पाडला माहेला लिक्सनेवान 	ોકિય સંસ્થા પાસેથી લીધેલ ધિરાણ અને તેની ઉ		સ્ત્રાના લાગુ વ્યાપ અવવા વધાલક પ		ज्या नवस जवा.	0	લાન કર્વક વાચાળીલીદીસ કરાય લસ્ત્રીદી			99040.30	6306.73	0960.99
हो. व्योर्ड इस्त्रय पास कर्या टारीण वी. डिपोमीट अक्तर पास्त्रय आहे मी परवाल क्या प्रधार कर्या टारीण वी. (१) वंपनी अध्यद तारश वागो / टारश व डी. (१) वंपनी अध्यद करे दिनो विजत द्वारा कोठन करी शके दोनी विजत (१) पामाणा लागांकिय वर्पना केवम दिवसे डिपोमीट खंडर्गटानी बुध रक्ता (३) डिपोमीट खंडर्गटानी बुध रक्ता (४) डिपोमीट खंडर्गटानी क्षार कोठन क् (४) डिपोमीट कांटर्गटा कोठन क्यानी सुधि (५) ध्यावता वार महिनानी संहर सुक्या प्र	dì					(P)	कृष्यमान्सीयस सायाजीसीहोस जोरोएन्स					
ाते. उपोणीट शकार पाड्या माहेती परचात कराय परास कर्या तारीण वी. (१) कंपाती असार कार्या वाणी / तारचा व डी. (१) कंपाती असार कार्य जिल्लाकी संतर्शत जार कोल्ला करी राखे देखी विज्ञत (१) पामाचा लाखांकिय वर्णना केला दिवसे डिपोणीट संतर पाड्या माहेता परिण्य भागाता दिवसे कंपाती हारा खेला ह (४) डिपोणीट संतर्शत खेला कंपा स्वार्थ (प) स्वार्थना तार महिलाजी संहर सुक्या प (१) डिपोणीट असार पाड्या साहेता जिल्लाकोवा		44 44 3433				(6)	गधर क्ष्यनान्सीयल बाबाजीबीहीस भोविजन्स			9496.24	6.50 6.50	7009.00 4.00
હેરાવ પસાર કર્યા લારીખ થી. ડિપોઝીટ પ્રકાર તારણ લાગી / તારણ ક ડી. (૧) કંપની કાયદા અને નિયમોની અંતર્ગત હારા એક્ઝ કરી શકે તેની વિગત (૨) પાછવા નાણોકિય વર્ષના હેલા દિવસે ડિપોઝીટ અંતર્ગતની કુલ ૨૭મ (૩) ડિપોઝીટ બલાર પાડવા માટેનો પરિપ્ર આપ્યાના દિવસે કંપની દ્વારા એક્ઝ ક (૪) ડિપોઝીટ અંતર્ગત એકઝ કરવાની સુધિ (૫) અથવતા બાર મહિનાની અંદર સુકવવા પ (૪) ડિપોઝીટ બલાર પાડવા માટેના નિયમોફાર્મ (૪) ડિપોઝીટ બલાર પાડવા માટેના નિયમોફાર	प्रकारको अस्तरम् अध्यक्ष भीत्रीताली	0C-0C-5055				(lls)	ડીફર્ડ ટેક્સ લાયાબીલીટીસ (નેટ)			908.43 9340.99	458.54	9990,93
डी. (१) वंधाती अवाद्य कर्न जिव्यमेली संदर्शत द्वारा सेक्स करी शर्व देनी विजय (२) पाछवा नास्त्रोहित्य वर्षना हेक्स (३) डिपोटीट संवर्ध पाइवा माहेनी परिप्र साप्याना दिवसे वंधानी द्वारा सेक्स (४) डिपोटीट संदर्शत सेक्स करवानी सुधि (५) साप्याता वार महिनानी संहर सुक्वा प (४) डिपोटीट संदर्श पाइवा माहेना निक्यमेन्ना	Edwin Gildel Fileline attenden					-	सहर नोन हरंट बायाजीबीटीस रोटब नोन हरंट बायाजीबीटीस			64.70	9908.06	
द्धारा कोकत करी शके तेली विजत (१) पाछवा लाखांकिय वर्गला छेव्या दिवसे डियोगीर कांतर्जात्ली कुव २६म (३) डियोगीर कांतर्जात्ली कुव २६म (४) डियोगीर कांतर्जात कोकत करवाली सुधि (५) धावता जार महिलाली कांद्रर सुकवय १ (४) डियोगीर कहार पाइवा मारेला लिक्कोकृगर		तारश वगरनी (अन				1 - 2	९२ंट बाबाजीबीटीस भूगबनान्सीयब बायाजीबीटीस				*******	7044.00
(२) प्राप्तवा लाशांकिय वर्गल होता। दिवसे डिपोजीट खंदाजीतती दुव २०म (३) डिपोजीट लकार पाडवा। माहेतो परिण्य राज्याता दिवसे इंपली द्वारा खेडण (४) डिपोजीट खंदाजीत खेडण करवाती सूचि (५) खावता जार महिलाली खंदर सुक्वा प (४) डिपोजीट लकार पाडवा माहेता लिक्सोहाल			લકુત્તમ લઇ શકાતી રકમ થી મહત્તમ લઇ શકાતી રકમ		9908.88 GIM	(9)	બોરોપ્ટસ			3989.45	900008	5005.00
ડિપોઝીટ અંતર્ગતાની કુશ ૨૭મ (૩) ડિપોઝીટ બહાર પાડવા માટેનો પરિપર આપાનાના દિવસે ઇપની દ્વારા એલ્ટર અ (૪) ડિપોઝીટ અંતર્ગત એલ્ટર લગ્નની સૃથિ (૫) અથવા લાર મહિનાની અંદર યુકવવા પ (૪) ડિપોઝીટ બહાર પાડવા માટેના નિયમોનાન		ga			८९५.५४ खाण	(3)	ટ્રેક પેએબલ અધર ફાયનાન્સીયલ લાયાબીલીટીસ			99494.59	0063.00	9369.06 9330.36
(३) डिपोजीट लकार पाडवा माहेनो परिण्य आप्याला दिवसे कंपनी द्वारा ओक्ज क (४) डिपोजीट अंदर्जत ओक्ज करवानी सुधि (प) आपदा जार मदिनानी ऑहर सुक्वा प (४) डिपोजीट लकार पाडवा माहेना नियमोक्का	દિવસે કંપની હારા એકત્ર કરવામાં આવેલ	३।. २८८५.४९ साण					અધર કરંટ લાયાબીલીટીસ પ્રોવિઝન્સ			4402.48	643.94 64.33	939,04
આપ્યાના દિવસે કંપની દ્વારા એક્ઝ ક (૪) ડિપોઝીટ અંતર્ગત એક્ઝ કરવાની સૃધિ (૫) આવતા લાર મહિનાની અંદર શુક્રવવા પ (૪) ડિપોઝીટ બહાર પાડવા માટેના નિયમોझा	บเดินาน อนเมตร เบดินาน สนะปี จะด้วยส	31, 3934,99 6104					අද දුන් මාකාරුමුවූන් (එද) වර්ත අදර මාකාරුමුවූන්		4	-	44.70	-
(૫) આવતા લાર મહિનાની અંદર યુકવવા ૫ (૪) ડિપોગ્રીટ બહાર પાડવા માટેના નિયમોગ્રામ	सक्ड छेब डिपोजेड अंदानिक कुछ सक्स						દોટલ લાયાગીલીટીસ			109C3.93	28904.20	46363'58
(૪) ડિપોઝીટ બહાર પાડવા માટેના નિયમોગ્રાન	सृचित २७भ	इत. ३८इ५.५४ लाज	(કી-૧ મુજબ)				होरब छहंपीरी केन्ड बाबाजीबीरीस			30806'03	34048'05	33306.89
	કવવા પાત્ર કિયોઝીટની સ્ક્રમ	इा. ७८८.८५ खाण				(ડી) કેશ ફ	बो स्टेंश्नेव्ह (मोडिटेंड)					(३पिशा लाणमां)
चुक्वानी पहित दिनेहेनी दिनत	ખોટ્રાાજનો દર, સમયગાળો,	સમચગાળો (વર્ષમાં)			हर (वार्षिक)	विशत		૩૧મી માર્ચ ર	1055	૩૧મી માર્ચા	2024	उरभी भार्य २०२०
		9	2,00,000	6,00		20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	ીંગ પ્રવૃત્તિથી રોક્ડ પ્રવાહ પ્રવૃત્તિથી રોક્ડ પ્રવાહ		9.03		32,00	¥\$00.95
		3	2,00,000	6.00	%	शी. कृथना	न्शींग प्रवृत्तिक्षी शेक्ड प्रवाक	(2330)		(4856		(6544.35)
		વ્યાજની ચૂકવણી અર્ધલ જિલાગવામાં આવશે	રાર્ષિક કરવામાં આવશે. વધારાની ડિપ કંપનીના શેરધારકો અને કર્મચારી	પોઝીટ રૂા. ૫૦, રિમોને ૦.૫%	०००/-ना गुष्टांक्यां	डी. वर्षान्ते	रोक्ड अने रोक्ड समान्तर	9	0.96		16.59	33.40
		संस्ववामा सावश. प	થાજ લેક, વોરંટ, આરટીજીએસ, ડીપોઝીટરના જેખમે મોકલવામાં અ	atde Gisti	ISUIDISCEI NUN		ઉપરોક્ત રોક્ડ પ્રવાહનું નિવેદન ભારતીય એકાઉન્ટી	ग स्टान्डर्ड (छन्ड स्टो	. એસ.) હ	oles voted Go	dear of Goodba	mak Dan melen
		छन्डस्टीम विभीटेड"न	होंते । वह "वर्ष इन्होर्स्टल्ड" संक	1519 SOIS	करवी थे आमहावाह		तैयार કरवामां आव्युं छे.			noo anag mi	don of multiple	selds addes disol
		રિસીપ્ટ ઉપર પ્રથમ દ	રી છે. ડિપોઝીટની સ્કમની ચૂકવણી ૧૨૭ હારા સહી કર્યા બાદ કંપન	નીને પરત અ	म्हा पछी करवामां		જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં પાછલા વર્ષના આંકડાઓ ફરી તેકાઉન્દીંગ પદ્ધતિમાં છેલા ત્રણ વર્ષમાં જો કોઇ ફેરફાર :			On and ale la		
		આવશે, જે તમામ સંયુ ધારકોને સંયક્ત રીતે	ક્ત કિપોઝીટ ઘારકોને બંઘનકર્તા ચૂકવણી કરવાનું નિર્દેશન કરવામ	રહેશે. અથવા તાં આવ્યું હશે	त्यारे हरेठ संयुक्त		ोब तो तेनी र्वपनीना नका राजे रीयर्प पर कारह	Marageral Affectal I	heat 2 date	n ain debie werr		
		ધારકે ડિપોઝીટ રીસીપ	ક પર સહી કરીને કંપનીમાં મોકલ	ાવાની રહેશે. એમા નગાવેલ	विधोजीर पाडवाना		લથી કંપનીના ડાયરેક્ટર્સ જાહેર કરે છે :					
		uniand escuel ske	રી-વારાલના હિસ્સામાં જેતે ડિપોર	મીટ કીસીપ્ટ સા	हो लवं छोप्डीईशन	(oil) (रंपनी द्वारा स्विकारेश डिपोઝीट तथा तेनी ઉपरना व्यापनी व् डेपोઝीट स्वीकारवाना परिपत्र अहार पाड्याना १ वर्षना राजवन	क्वशीमां कायहो आव्य	प्रदेश शक	या पछी ठोड चूठ वह	r attl.	of serious & seed
		निर्शय अंतिभ रीते भ	ડિપોઝીટ રીન્યુઅલનો સ્વિકાર ક ાન્ય ગણાશે. ડિપોઝીટની પરત યૂ	ાકવણી આર.	원.영. 허전. , 이약 ³		बारे अंपनीनी लाशांकिय परिस्थिति योज्य दशे तेवो अंपनीना	दिरंडरोथे वंपनीना व				an electric serve
		आमहावाह जाते पेथेव नामथी प्रथम धारकनी	લ શિક્યુલ્ક બેંકના એકાઉન્ટ જવાબદારી પર મોક્લવામાં આવ	प्रव वंक दा	रा अवभ चारवना	(51) 6	પની, કંપની ધારા અને તેના હેઠળ બનેલા નિયમોનું પાલન પની,કંપની ધારાના અને તેના હેઠળ બેનેલ નિયમોનું પાલન		र्व छेवे ज	ी बतो है, हेन्द्र सक	on fabilital no	Subject Searce for
ોના લિયોગીટ સ્ક્રીમ સાલ લવાની તારીખ, સમર		આ ડિપોઝીટ સ્ક્રીમ	शङ् थवानी सूथित तारीण : ९६-	e-2022 2d1	શે, અને જાહેરાત		લપે છે. પત્નીનો કારણે ૨૦૧૩ના અમલમાં આવ્યા પહેલા કંપની દ્વારા					
ने सूचित समय आणा मारे मान्य रहेशे ते	સમગ્ર તથા પરિપત્ર અથવા જહેરાત		૦૨૩ અથવા કંપનીની ૮૨મી વાર્ષિ			6	विभाराष्ट्र थे. ते प्रभाशे र्जपनीको डिपोजीह स्वीकारवाना नियम	२०९४मा क्रियम ९६मा	i estratei e	क्षाचेव कागूदि प्रभावो		
	, રામચ તથા પરિપત્ર અથવા જાહેરાત હેવો તે અંગેની વિગતો		6 शे त्थां सुधी मान्य गलाशे.			(96)	पोजीट परत निर्क वाय त्यां सुधी ते छत्य छानसिक्योर्ड पप डिट रेटींजमां कोष्टपस नकारात्मक क्रेरकार यथे तो डिपोजीट	neu avale blesu	SIED 23 1945	र विभोजीत पाणी केपान	ते मोदो धरापकार्थ ध	red.
ह्योजीड स्वीकारपा माहेना कारखो / हेतुका	, राभव तथा पश्चिम रुखया शहेरात देवो ते छांगेली विगती		रूडी भेजववानी क्यूरियात माटे			(3)	क क्रिकेट विकार केला प्रकार सार्थिय किराजना हराविका	क्षो पुरतो ४ डिपोशीक	ની રકમતો ઉ	ઉપયોગ થશે.		
ोच) डेडिट रेटींग मणेल छे :	હેશે તે અંગેની વિગતો	દિવસમાંથી જે પ્રથમ	s Ltd., all all. 30-05-2022 al			5. \$	પની ઢારા સ્પિકારાયેલ ડિપોઝીટની રકમ અનસિક્યોર્ડ છે. વે રિક્લેમર : એવું સ્પષ્ટ રીતે સમજવાનું રહેવો કે રજીસ્ટ્રાર સમા	हे स्प्रशिप क्रांक प्रश्न व	AVESTICION S	SERVICE WENT COME	second old man	rd and and d dai
કેડિટ રેટીંગ સંસ્થા, કંપનીએ મેળવેલ કેડિ કેડિટ રેટીંગનો અર્થ, કેડિટ રેટીંગ મેળવ્યા	હેશે તે અંગેની વિગતો	हिवसमांबी के अबम कंपनीनी कार्यकारी व का, Care Rating				5	प्रस्थार कावाया केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति कावाया कानुसीहन एकारकाकां काली रही के देनी नामांकित कावानता सार्ट कीय	श्वापदामां सामित हो, व	रक्षक्रूम हे हे कार्ज क्रहेशका	ins arese shibits on income inorpasion	asia d the sed of	Nala Manerel &
इडिट रेटागबी जब, इडिट रेटाग मणच्या	હેવી તે અંગેની વિગતો 'હેતુઓ લ હેડિસ્ રેસ્ટીંગ, મેળવેલ	हिवसमांबी चे अबम कंपनीनी कार्यकारी व ढा, Care Rating: डीपोजीट स्टीमने C	ARE BBB+; Stable ਵੋਡੀਂગ ਆ 'Stable " ਦੇ. ਵੋਡੀਂગ CARE Bl			9	च्यात कंञेली कोइपछ क्याद्यहारी बेटी नथी. डीपोत्रीक्शेक्षे र	nea woofs inslicted	i udan siya	il modes mod.		
	હેવી તે અંગેની વિગતો 'હેતુઓ લ હેડિસ્ રેસ્ટીંગ, મેળવેલ	हिपसमांबी चे भवम रूपनीनी ठावंठारी र का, Care Rating डीपोजीट स्टीमने CA रेटींजनो द्रस्टिकोस	ARE BBB+; Stable રહોગ આ 'Stable " છે. રેટીંગ CARE Bi ો સમયસર સેવા સંબંધિત મહ્યમ,			ख्या : समहा तसीम : ०८-०	GIE. C-2000					idestive geneli weight fit, and
(Bulishe योक्जाना विभानी विश्वतो : विभ	હેવો તે અંગેની વિગતો ' હેતુઓ લ ક્રેડિટ રેટીંગ, મેળવેલ છત્લા તારીખ	हिपसमांबी चे भवम रूपनीनी ठावंठारी र का, Care Rating डीपोजीट स्टीमने CA रेटींजनो द्रस्टिकोस	'Stable " છે. રેટીંગ CARE Bl ો સમયસર સેવા સંબંધિત મધ્યમ,									softs also, ma
રકમ, અવધિ તથા શરતો / ડિફોલ્ટ સમયે	હેવો તે અંગેની વિગતો હેતુઓ હ કેલિટ રેટીંગ, મેળવેલ local તારીખ ! - વિગલ કંપનીનું નામ, વિમા આરસપ્લની	हिपसमांबी चे अबम कंपनीनी कार्यकारी ह का, Care Rating डीपोगीट स्डीमने C रेटींअनो द्रष्टिकोस नासांकिय सेपाओन	'Stable " છે. રેટીંગ CARE Bi ો સમયસર સેવા સંબંધિત મધ્યમ,									States Share

SAYAJI	CIN L99999GJ	TRIES LIMITED. U1941PLC000471	70 22001581 .	95		Extent of deposit insurance, Name of the terms of the insurance coverage, duration extent of coverage, procedure for claim	on of coverage, in case of default etc.	Not Appli	cable now				
Regd. Office	P.O. Kathwada, Maize Products, i E-mail maize@sayajigroup in	Website www.sayajigroup.i		00		Short particulars of the charge created of securing such deposits, if any,		Not Appli	cable as the deposits are u	insecured deposits.			
(Pursuant t	to Section 73 (2)(a), and Section	DPT - 1 of Advertisement Inviting D on 76 and Rule 4(1) and 4(2) eposits) Rules 2014]	eposits of the Compar	nies		Any financial or other material interest of promoters or key managerial personnel in the effect of such interest in so far as interests of the other persons. DETAILS OF ANY OUTGOWN IN SEC.	n such deposits and it is different from the	except as	ctors, promoters or key man are not anyway interested is the depositors for placement d conditions as the other de	or concerned in the scheme			
GENERAL INFORMATION Name address website	to and other contact details					DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS (a) Amount outstanding			Rs. 2886.41 Lakh on 31st March, 2022				
of the Company.	e and own consect departs	Sayaji Industries Limited, P.O. Kathwada - Maize Products Ahmedabad-382430, Telephone no: 91-79-22901581 - 85 E-mail maize@sayajigroup in • Website www.sayajigroup.in				(b) Date of acceptance			Deposits were accepted on various dates for the period of 1/9/				
b) Date of incorporation of	In Control					Total amount accepted	BUILD TO	Jears.	Rs. 2886 41 Lakh.				
(c) Business carried on by the company and its subsidiaries with details of branches or units, if any.		30th January,1941 The company is manufacturing Starches and its derivative				(d) Rate of interest			7.00 % for one year 8.00 % for two warm 10.00 % for				
subsidiaries with details of branches or units. If any		products like Liquid Glucos	products like Liquid Glucose, Dextrose Anhydrous, Dextrose Monohydrate, Sorbilol and other by products like maize oil, maize oil cake, maize gluten and maize wet and dry bran at its until located at Maize Products. Katthwada, Ahmedabad-382430. The Company is having its branches at Mumbai, New Delhi and Kolikata. The company has followings subsidiaries within the meaning of the Companies Act, 2013. 1. Sayaji Seeds LIP which is engaged in the business of production and trading of various kind of hybrid seeds and other agricultural				(e) Total number of depositors (f) Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest there on, if any, including number of depositors, amount and duration of defaults involved (g) Any waiver by the depositors, of interest accrued on depositors FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY			years, 0.5% additional interest for deposits from shareholders and employees.			
		at Maize Products. Kathwada, is having its branches at Mu								643 There are no defaults in repayment of deposits and payment of interest thereon. There has been no waiver of interest accrued on deposits. (Rs. in Lakhs)			
		Companies Act, 2013. 1. Sayaji Seeds LLP which is en and trading of various kind of											
(d) Bnef particulars of the management of the Company		and horticultural produce. The company is managed by 9	Shri Priyam B. Me	hta, Chairman and	(8)	Particulars Profit / (Loss) before tax of the Co	Omnony.	2021-22	2021-22 2020-21 2019-20				
or or company.		Managing Director, Shri Varu Shri Vishal P. Mehta, Ex-	in P. Mehta, Executive Directo	utive Director and subject to the		Profit / (Loss) after tax of the Cor	mpany	2958.51 1884.39	2869.33 1658.58	(524 35) (232 37)			
o) Names astronom Dir	N and occupations of the first	superintendence, control and				(I) Dividend		20.00%	20.00%	0.00			
Name of Director	N and occupations of the directors. Address		Occupation	DIN	(0)	This sat coverage ratio		3.94	3.27	0.67			
Shri Priyam B. Mehta	"Bipin Nivas" Panchvati, Ellisbridge,	Ahmedahad - 380006 Gujarat	Industrialis		1	A summary of the financial position	n of the company as in As at 31st Marc			(Rs. in Lakhs)			
Shri Varun P. Mehta	"Bipin Nivas" Panchvati, Ellisbridge,		Industrialis		A	Assets	As at 3 ist marc	.11, 2022	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020			
Shri Vishal P Mehte	"Bipin Nivas" Panchvati, Ellisbridge, J	Ahmedabad - 380006. Gujarat.	Industrialis	t 02690946	(a)	Non Current Assets Property, Plant and Equipment	2	4076.01	20833.96	20095.67			
Causeryone Dalai	2. Ashani Society, B/h. Aeristo Villa, . Ahmedabed-380053, Gujarat.	Jodhpur Char Rasta,	Doctor	00040924	(c)	Capital work-in-progress Other Intangible Assets Financial Assets		338.96 6.01	929 95 14.05	962 97 33 10			
r Janakohai D. Desai	11, Heritage Residency, Thaltej, Ahme		Doctor	02565216	(1)	Investment		1133.34	990.91	724.21			
A Chiragbhai 4 Shah	Walkeshwar Society, Behind Sheth Ambawadi, Ahmedabad – 380015, Gu		Chartered Accountant	00021298	(e)	Other Financial Assets Non Current Tax Assets	Million , the	339.40 0.29	262.01 66.00	238.71			
Ars. Sujata P. Mehta	"Bipin Nivas" Panchvati, Ellisbridge, A		Industrialis		(1)	Other Non Current Assets		210.47	602.17	131.91 494.80			
Mr. Jaysheel Hazarat	Sunny Ville 22, Carmichael Raod, Pe		Profession		2	Total Non Current Assets Current Assets	20	6104.48	23699.05	22681.37			
dr. Birad Yaynik	Cumballa Hill, Mumbai – 400026. Plot No. 171, Road No. 3, Banjara H	Hills Hyderahad	Destant	al 03343371	(a)	Inventories Financial Assets		5461.42	4937.63	4740.91			
	Andhra Pradesh-500034		Profession		0	Trade Receivables Cash and Cash Equivalents		5037.84	4429.95	4691.05			
Mr. Amit Nareshchandra Shah	 Satellite Society, Satellite Road, Vistar, Satellite, Ahmedabad-380 015 		Whole-time Director	08789478	(ii)	Other Bank Balances Other Financial Assets (net)		60.68 32.03	78.61 35.57	33.50 49.02			
Management's perception of risk factors: As mentioned in the Management Discussion and Analysis Report			(Tehnical)			Other Current Tax Assets		132.23 13.21	311.50 69.81	374.18 121.03			
		t which forms the part of the 81st Annual Report the management has				(f) Other Current Assets Total Current Assets		633.14 492.60		417.36			
destilled in the Manag	The Analysis Repor	which forms the part of the of "	Annual Report the	management nas					10355.67				
presence for growth and of	to increased competition, decrease in change in environment regulations. The	demand, scarcity / quality of raw m	naterials, requirem	ent of geographic by being leading		Total Assets		370.55 475.03	34054.72	10427.05 33108.42			
presence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of pol	to increased competition, decrease in a change in environment regulations. The ty starch products, consistent focus on office for raw materials and its storage, a	demand, scarcity / quality of raw m he management has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee	materials, requirem ne aforesaid risks n of high margin p at demands of dive	ent of geographic by being leading products, focus on erse industries like	B. 1	Total Assets Equity and Liabilities				33108.42			
identified the risks relating to presence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of pol- lextile. FMCG food, paper, p- industries utilizing the compa industries utilizing the compa	to increased competition, decrease in a change in environment regulations. This by starch products, consistent focus on piloy for raw materials and its storage, of paints, pharmaceuticals, confectionery pany's products, and installing modern is	demand, scarcity / quality of raw m he management has minimized th n capacity expansion for production diversified product portfolio to meet etc installation of biogas engine to	materials, requirement aforesaid risks on of high margin part demands of diversions are the power of the powe	ent of geographic by being leading products, focus on arse industries like cost, being near to	B. 1.	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Equity Share Capital	37	316.00	34054.72 316.00	33108.42 316.00			
identified the risks relating to presence for growth and climanufacturer of high quality effective procurement of politicatile, FMCG, food, paper, productions utilizing the compa and future production capacity.	to increased competition, decrease in change in environment regulations. The starch products, consistent focus on pilicy for raw materials and its storage, opaints, pharmaceuticals, confectionery warry's products, and installing modern stollies of the company etc.	demand, scarcity / quality of raw m he management has minimized th he capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflu	naterials, requirement aforesaid risks of high margin put demands of diversions are the power of the power which takes of	ent of geographic by being leading products, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B. 1.	Total Assets Equity and Liabilities Equity	37	316.00 0734.39	34054.72 316.00 9063.43	33108.42 316.00 7374.11			
identified the risks relating it presence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of pol textile. FMCG food, paper p industries utilizing the compa and pure production capacing. Details of default, inclu- duration of default and duration of default and	to increased competition, decrease in a change in environment regulations. This by starch products, consistent focus on piloy for raw materials and its storage, of paints, pharmaceuticals, confectionery pany's products, and installing modern is	demand, scarcity / quality of raw m he management has minimized that capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflu	naterials, requireme aforesaid risks in of high margin pet demands of dive to save the power uents which takes of the first tak	ent of geographic by being leading orroducts, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B. 1.	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities	37	316.00	34054.72 316.00	33108.42 316.00			
identified the risks relating to presence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of pol leatile. FMCG food, paper, joi industries utilizing the compa and future production capaci gg. Details of default, inclu duration of default and (1) Stalutory dues (2) Debenture and inter-	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on licely for raw materials and its storage, opaints, pharmaceuticals, confectionery any's products, and installing modern solites of the company etc. luding the amount involved, of present status, in repayment of lerest thereon	demand, scarcity / quality of raw m he management has minimized th n capacity expansion for production diversified product portfolio to medic etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflu	naterials, requireme aforesaid risks in of high margin pet demands of dive to save the power uents which takes of the first tak	ent of geographic by being leading orroducts, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B. 1.	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings	10	316.00 1734.39 050.39	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40	33108.42 316.00 7374.11 7690.11			
identified the risks relating to presence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of pol leatile. FMCG food, paper, joi industries utilizing the compa and future production capaci gg. Details of default, inclu duration of default and (1) Stalutory dues (2) Debenture and inter-	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on clicity for raw materials and its storage, paints, pharmaceuticals, confectionery any's products, and installing modern scibles of the company etc. Juding the amount involved, d present status, in repayment of	demand, scarcity / quality of raw m he management has minimized that capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflu	naterials, requireme aforesaid risks in of high margin pet demands of dive to save the power uents which takes of the first tak	ent of geographic by being leading orroducts, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B. 1.	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions	10 111	316.00 316.00 1734.39 050.39 5519.25 2.00 174.53	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85	33108.42 316.00 7374.11 7690.11			
identified the risks relating to presence for growth and of different personal programment of effective procurement of poli- lettile. FMCG food, paper, pi industries utilizing the compa and future production capaci g) Details of default, inclu- duration of default and (1) Statutory dues (2) Debenture and inte (3) Loan from any ban interest thereon	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, paints, pharmaceuticals, confectionery pany's products, and installing modern scibles of the company etc. Juding the amount involved, d present status, in repayment of interest thereon ink or financial institution and	demand, scarcity / quality of raw new he management has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflu	naterials, requireme aforesaid risks in of high margin pet demands of dive to save the power uents which takes of the first tak	ent of geographic by being leading orroducts, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B. 1.	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities	10 111	316.00 0734.39 050.39	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20	316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20			
identified the risks relating to presence for growth and of different procurement of policy effective procurement of policytic. FMCG food, paper, princustries utilizing the compand fulture production capacing. Details of default, includuration of default and (1) Statutory dues (2) Details of default, includuration of default and (3) Loan from any ban interest thereon. PARTICULARS OF TH a) Date of passing of bo.	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on licely for raw materials and its storage, opaints, pharmaceuticals, confectionery any's products, and installing modern solites of the company etc. luding the amount involved, d present status, in repayment of terest thereon mix or financial institution and the DEPOSIT SCHEME pard resolution.	demand, scarcity / quality of raw ne management has minimized th capacity expansion for production diversified product portfolio neete, installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a	naterials, requireme aforesaid risks in of high margin pet demands of dive to save the power uents which takes of the first tak	ent of geographic by being leading orroducts, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B, 1. (a) (b) (c) (d)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities	10 11 11 6	316.00 1734.39 050.39 1519.25 2.00 174.53 1350.16	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07			
identified the nsks relating to presence for growth and of presence for growth and of defective procurement of political effective procurement of political feet of the production capacity production of default, includer duration of default, includer duration of default and (1) Statutory dues (2) Debenture and interest thereon 2 PARTICULARS OF TH a) Date of passing of box	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, ann's products, and installing modern scibles of the company etc. Juding the amount involved, of present status, in repayment of terest thereon ink or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME Dard resolution.	demand, scarcity / quality of raw new he management has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflu	naterials, requireme aforesaid risks in of high margin pet demands of dive to save the power uents which takes of the first tak	ent of geographic by being leading orroducts, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B. 1.	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities	100 · 111	316.00)734.39)050.39)519.25 2.00 174.53)350.16 95.47	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.84 7104.09	316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53			
identified the nisks relating to prosence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of politextile. FMCG food, pager, pindustries utilizing the compand fullure production capacity of default, includuration of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and interest thereon. PARTICULARS OF THailand Description of passing of boot passing of possible of passing the invitation.	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, paints, pharmaceuticals, confectionery, and's products, and installing modern sicilies of the company etc. Juding the amount involved, depresent status, in repayment of increase thereon in the company etc. In the DEPOSIT SCHEME paint reposition and the DEPOSIT SCHEME paint resolution. Solution in the general meeting tion of such deposits.	demand, scarcity / quality of raw ne management has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a 08/08/2022 08/08/2022	naterials, requireme aforesaid risks in of high margin pet demands of dive to save the power uents which takes of the first tak	ent of geographic by being leading orroducts, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B, 1. (a) (b) (c) (d)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities	37 10 111 6 2 9	316.00 3734.39 050.39 1519.25 2.00 174.53 3350.16 95.47 1141.41	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64	3108.42 316.00 7374.11 7890.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07			
identified the nisks relating to presence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of politexitie. FMCG food, pager, pindustries utilizing the compand fullure production capacilization of default and (1) Statutory dues (2) Debenture and interest thereon (3) Loan from any ban interest thereon PARTICULARS OF THa) Date of passing of too b) Date of passing of the pass	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on policy for raw materials and its storage, paints, pharmaceuticals, confectionery, any's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do resent status, in repayment of cerest thereon ink or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME coard resolution. HE DEPOSIT SCHEME coard resolution in the general meeting tion of such deposits.	demand, scarcity / quality of raw new he management has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efful There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a 08/08/2022 08/08/2022	naterials, requirer e aforesaid risks n of high margin, for the demands of dive o save the power ents which takes of of Statutory due d interest thereon nny debentures.	ent of geographic by being leading orroducts, focus on arse industries like cost, being near to care of the present	B, 1. (a) (b) (c) (d)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Current Liabilities	37 100 111 6 2 9 9	316.00 3734.39 050.39 050.39 1519.25 2.00 174.53 3350.16 95.47 1141.41	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 ————————————————————————————————————	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 			
identified the risks relating to presence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of politextile. FMCG food, paper, prindustries utilizing the compand future production capaci good production of default and (1) Statutory dues (2) Debenture and interest thereon. PARTICULARS OF TH a) Date of passing of residentification of the passing of the passing of the passing of the passing of the production of the passing of the passin	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on policy for raw materials and its storage, paints, pharmaceuticals, confectionery, any's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do resent status, in repayment of cerest thereon ink or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME coard resolution. HE DEPOSIT SCHEME coard resolution in the general meeting tion of such deposits.	demand, scarcity / quality of raw ne management has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat effluit of the capacity of the company has not lissued a The company has not lissued a 08/08/2022 08/08/2022 Unsecured Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company	naterials, requiren e aforesaid risks n of high margin, in ti demands of dividence osave the power ents which takes to f Statutory due d interest thereon my debentures.	nent of geographic, by being leading products, focus on rise industries like lost, being near to care of the present s, Loan from any by the Company.	B, 1. (a) (b) (c) (d)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities	37 100 111 6 2 9 9	2475.03 316.00 7734.39 050.39 1519.25 2.00 174.53 350.16 95.47 1141.41	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 			
identified the risk relating to prosence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of politestile. FMCG food, paper, pindustries utilizing the compand futfure production capacity of pages of the production of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and interest thereon. PARTICULARS OF Thai). Date of passing of the pages of passing of pages authorizing the invitation of the pages of t	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on policy for raw materials and its storage, paints, pharmaceuticals, confectionery, any's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do resent status, in repayment of cerest thereon ink or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME coard resolution. HE DEPOSIT SCHEME coard resolution in the general meeting tion of such deposits.	demand, scarcity / quality of raw ne management has minimized th capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a 108/08/2022 08/08/2022 Unsecured Amount which the company can raise from shareholders	naterials, requirer e aforesaid risks n of high margin, for the demands of dive o save the power ents which takes of of Statutory due d interest thereon nny debentures.	nent of geographic popular in the property of	B, 1. (a) (b) (c) (d)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities Other Mon Current Liabilities Total Mon Current Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Current Liabilities	37 100 111 6 2 9 9	316.00 316.00 3734.39 050.39 1519.25 2.00 174.53 3350.16 954.76 1141.41 1141.56 1525.62 1578.54	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 			
identified the nisks relating to presence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of politextile. FMCG food, paper, pindustries utilizing the compand full time production capac gip Details of default, includuration of default and (1) Statutory dues (2) Debenture and intelligible of the control of the contr	to increased competition, decrease in change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery many's products, and installing modern soibles of the company etc. luding the amount involved, d present status, in repayment of erest thereon mix or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME pard resolution in the general meeting tion of such deposits, whether secured or unsecured, company can raise by way of ct and the rules	demand, scarcity / quality of raw ne management has minimized th capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a 108/08/2022 08/08/2022 Unsecured Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public	naterials, requirer e aforesaid risks n of high margin, for the demands of divo o save the power ents which takes of of Statutory due di interest thereon interest thereon nny debentures.	nent of geographics, focus on by being leading products, focus on rise industries like cost, being near to care of the present s, Loan from any by the Company.	B, 1. (a) (b) (c) (d)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Provisions Current Liabilities Protal Liabilities Total Liabilities	37 10 111 6 2 9 9 3 111 1 17 26	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 317.34.39 3050.39 3050.16 95.47 3350.16 95.47 3414.41	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7799.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29	33108.42 316.00 7374.11 7890.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2.233.38 737.05 199.56 19362.24 25418.31			
identified the nsks relating to presence for growth and of measurement of high quality effective procurement of politextile. FMCG food, paper pindustries utilizing the compand future production capac (g) Details of default, includuration of default and (1) Statutory dues (2) Debenture and intellect thereon (2) Debenture and intellect thereon (3) Loan from any ban interest thereon (2) PARTICULARS OF Th. a) Date of passing of possible to the deposits as per the Acmade there under.	to increased competition, decrease in the change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, analys products, and installing modern solities of the company etc. Luding the amount involved, of present status, in repayment of terest thereon ink or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME card resolution. Institution and the company can be company etc. Institution and the com	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a default of the company has not issued a default o	naterials, requirer e aforesaid risks n of high margin, for the demands of divo o save the power ents which takes of of Statutory due di interest thereon interest thereon nny debentures.	nent of geographics, focus on by being leading products, focus on rise industries like cost, being near to care of the present s, Loan from any by the Company.	8, 1 (a) (b) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forowingo Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Funancial Liabilities Other Funancial Liabilities Other Funancial Liabilities Other Funancial Liabilities Total Current Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities	37 10 111 6 2 9 9 3 111 1 17 26	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.39 31519.25 2.00 31774.53 3350.16 95.47 3141.41 3141.56 525.62 954.61 578.54 82.90 	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 — 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20	33108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 19363.24 25418.31 33108.42			
identified the risks relating to prosence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of politestile. FMCG food, paper pindustries utilizing the compand future production capacity of the paper pindustries utilizing the compand future production capacity of default, includuration of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and intelligible (3). Loan from any ban interest thereon. PARTICULARS OF THail Date of passing of position of passing of position of passing of position of passing of positions of passing of p	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the stage in environment regulations. The starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, ann's products, and installing modern is cities of the company etc. Inding the amount involved, of present status, in repayment of terest thereon mink or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME card resolution. Indicate the secured or unsecured in the secured or unsecured. Company can raise by way of ct and the rules prosits actually held on the last by preceding financial year, sosits held on date of issue of ir in the Form of Advertisement.	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a New York of the Company has not issued a Manual which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh	naterials, requirer to a doresaid risks not high margin, to the demands of dive os save the power usents which takes of the tof Statutory due interest thereon any debentures. Rs Rs Rs	nent of geographics, focus on by being leading products, focus on rise industries like cost, being near to care of the present s, Loan from any by the Company.	8, 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (A) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forowispos Deferred Tax Liabilities Total No Current Liabilities Total Non Current Liabilities Current Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Funancial Liabilities Other Current Liabilities Other Current Liabilities Total Current Liabilities Total Current Liabilities Total Equity and Liabilities Total Equity and Liabilities undited cash flow statement	37 10 11 6 2 9 3 11 17 26 31 Year ended 31st Mar	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 395.39 31519.25 2.00 3174.53 3350.16 95.47 1141.41 1141.56 1525.62 1525.62 1578.54 82.90 	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 — 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72	33108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 177.07 1110.53 — 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 — 19363.24 25418.31 33108.42 (Fig. In Lakhs			
identified the risks relating to prosence for growth and of manufacturer of high quality effective procurement of politestile. FMCG food, pager production capacity of the production c	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the star products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, and's products, and installing modern is cibles of the company etc. Iuding the amount involved, do present status, in repayment of terest thereon into or financial institution and IME DEPOSIT SCHEME coard resolution. Increased the second of the second in the second of the company can raise by way of cot and the rules Increased the rules of the second of	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a New York of the Company has not issued a Manual which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Rs. 3865.54 Lakh as per item d	naterials, requirer to a doresaid risks not high margin, to the demands of dive os save the power usents which takes of the tof Statutory due interest thereon any debentures. Rs Rs Rs	nent of geographics, focus on by being leading products, focus on rise industries like cost, being near to care of the present s, Loan from any by the Company.	8, 1 (a) (b) (c) (d) (d) A B. (d) A B. (d)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forowingo Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Funancial Liabilities Other Funancial Liabilities Other Current Liabilities Other Turent Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Equity and Liabilities Total Equity and Liabilities Total Equity Funancial Liabilities Total Current Liabilities Total Equity and Liabilities Total Equity Funancial Liabilities Total Experiment Schale Funancial Liabilities Schale Funancial Liabilities Total Experiment Schale Funancial Liabilities Total Experiment Schale Funancial Liabilities Funancial Liabilities Schale Funancial Liabilities Schale Funancial Liabilities Schale Funancial Liabilities Schale Funancial L	37 10 10 11 6 2 9 3 11 17 26 37 Year ended 31st Mar	316.00 316.00 316.00 31734.39 050.39 5519.25 2.00 1519.25 2.00 1745.53 3350.16 95.47 1141.41 1141.56 525.62 954.61 1578.54 82.90 17283.23 3424.64 17475.03	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2.2330.38 737.05 199.56 199.56 199.56 (Rs. in Lakins Year ended 31st March 202			
dentified the risks relating to presence for growth and of measurement of policy death. FMCG food, paper, production capacities, FMCG food, paper, pandustries utilizing the compand future production capacities, FMCG food, paper, pand future production capacities, FMCG food, paper, pand future production capacities, particular of default, including the control of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and intelligible (2). Date of passing of both particulars of passing of fee authorizing the invitation. PARTICULARS OF THE (1). Date of passing of resident particulars of responsible to the companion of the passing of the passing of resident particulars. The page of deposits as per the Acmade there under. The aggregate of deposits in the companion of the companion of the passing of the Circular or circular of circular or circular. Amount of deposit prop.) Amount of deposit repi	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the stage in environment regulations. The starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, ann's products, and installing modern is cities of the company etc. Inding the amount involved, of present status, in repayment of terest thereon mink or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME card resolution. Indicate the secured or unsecured in the secured or unsecured. Company can raise by way of ct and the rules prosits actually held on the last by preceding financial year, sosits held on date of issue of ir in the Form of Advertisement.	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to me etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat effluration of the production of	naterials, requirer to adverse the second risks of high margin pictors of the second risks of the second risks of the second risks of the second risks which takes of the second risks which takes of the second risks of statutory due to interest thereon any debentures. Rs Rs Rs Rs	nent of geographics, focus on by being leading products, focus on rise industries like cost, being near to care of the present s, Loan from any by the Company.	B. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forowingo Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Financial Liabilities Total Current Liabilities Total Liabilities Other Funancial Liabilities Other Funancial Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Equity and Liabilities Wolfar Sund Financial Current Liabilities Wolfar Sund Financial Current Capital	37 10 10 11 6 2 9 3 11 17 26 37 Year ended 31st Mar	316.00 316.00 316.00 9050.39 1519.25 2.00	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 — 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9369.98 2330.38 737.05 199.56 19963.24 25418.31 33108.42 (Rs. in Lakins Year ended 31st March 202			
dentimed the nsks relating to presence for growth and of measurement of presence for effective procurement of polientile. FMCG food, paper, produstries utilizing the compand fulure production capacity of the production of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and intelligible to the compand fulure production of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and intelligible to the compand of the companient of the	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state of the company and increase in the state of the company and increase in the company and increase incre	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolic to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a comp	materials, requirem ea doresaid risks not high margin is to demands of dive save the power tents which takes of the save to f Statutory due di interest thereon any debentures. Rs Rs Rs Rs Rs 16(i). Deposit Rs. Int	enet of geographic by being leading products, focus on rise industries like tost, being near to tare of the present s, Loan from any by the Company. 1104.44 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh	B. 1 (a) (b) (c) (d) (d) A (e) (d) A (e) (d) A (e)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Gurrent Liabilities Trade Payables Other Gurrent Liabilities Trade Tax Liabilities Trade Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Widled cash flow statement Schiller Component Tax Capitalities Widled Cash Flow From Activities WIGHER OW FROM MYESTING ACTIVITIES WIGHER OW FROM MYESTING ACTIVITIES WIGHER OW FROM FROM FINANCING ACTIVITIES WIGHER OW FROM FINANCING ACTIVITIES WIGHER OW FROM FROM FINANCING ACTIVITIES WIGHER OW FROM FINANCING ACTIVITIES WIGHER OW FROM FINANCING ACTIVITIES WIGH AND CASHEQUIV ALENT AT THE END FITHEYEAR	37 10 11 6 2 9 3 11 1 17 26 37 Year ended 31st Mar	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 317.34.39 3050.39 3050.16 954.77 3141.41 3141.56 3525.62 954.61 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 3525.62 954.64 955.62 956.6	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72 aar ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.65)	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 1995.66 19363.24 25418.31 33108.42 (Fis. in Lakins Year ended 31st March 2609) (2426.12 (271.32			
dentified the risks relating to presence for growth and of presence for growth and of chanufacturer of high quality effective procurement of pole exists. FMCG food, paper, production capacity of the control of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and intelligible to present the compact of the co	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state of the company and increase in the state of the company and increase in the company and increase incre	demand, scarcity / quality of raw me management has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a compa	naterials, requirem eadoresid risks not high margin, in the demands of dividence of the power to save the power unit of Statutory due di interest thereon any debentures. Rs R	ient of geographic, focus on the products, focus on the products, focus on the products of the present state of th	B. 1 (a) (b) (c) (d) (d) A (e) (d) A (e) (d) A (e)	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Financial Liabilities Total Liabilities Other Current Liabilities Other Current Liabilities Other Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Equity and Liabilities Uculars UCSHFLOW FROMOPERA TINGACTIVITIES UCSHFLOW FROM INVESTING ACTIVITIES UCSHFLOW FROM INVESTING ACTIVITIES UCSH AND CASH GUIV A LENT AT THE END GTHE YEAR E: 1. The above cash flow statement (Ind AS) -7 "Statement of Cash for the Cash flow statement (Ind AS) -7 "Statement of Cash for the Cash flow statement (Ind AS) -7 "Statement of Cash flow	37 10 111 6 2 9 3 31 11 17 26 31 Year ended 31st Mar (4 4 has been prepared u	316.00 316.00 3734.39 050.39 1519.25 2.00 174.53 3350.16 954.71 1411.41 1411.56 1525.62 954.61 1578.54 82.90 1283.23 1424.64 1475.03 1424.64 1475.03 160.68 160.68 160.68	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.84 7104.09 7789.02 7799.07 772.77 943.61 21.33 51.40 11571.20 24675.29 34054.72 tar ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 1995.66 19363.24 25418.31 33108.42 (Fis. in Lakins Year ended 31st March 2609) (2426.12 (271.32			
dentified the risks relating to presence for growth and of presence for growth and of chanufacturer of high quality effective procurement of pole exists. FMCG food, paper, production capacity of the control of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and intelligible to present the compact of the co	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state of the company and increase in the state of the company and increase in the company and increase incre	demand, scarcity / quality of raw me management has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a management of the company has not issued as not included in the company has not issued as not included in the management of the	materials, requirem earlors and risks, not high margin, in the demands of divide save the power such that has a constitution of the constitution o	ient of geographic, focus on the property of the present of the pr	8. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Other Current Liabilities Trade Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Waltied cash flow statement Usulars CASH-RLOW FROMOPERA TING ACTIVITIES CASH-RLOW FROM INVESTING ACTIVITIES CASH-RLOW FR	37 10 11 6 2 9 31 11 17 26 31 Year ended 31st Mar (3 (4) has been prepared u	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.39 31519.25 20 20 20 20 2174.53 3350.16 954.47 3141.41 3141.56 3252.62 954.61 3578.54 82.90 —2283.23 3424.64 7475.03 3428.55) 3430.41) 60.68	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72 par ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out any.	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 199.56 199.56 (Rs. in Lakins Year ended 31st March 202 4609; (2426.12 (2211.32 33.5) in Indian Accounting Standa			
dentified the nsks relating to researce for growth and of chanufacturer of high quality fiffective procurement of pole exists. PMCG food, paper, produstries utilizing the companion future production capacilipation of default, includuration of default, includuration of default, includuration of default and (1) Statutory dues (2) Debenture and intel (3) Loan from any ban interest thereon PARTICULARS OF TH) Date of passing of fes authorizing the invitation of deposits of the passing of research of the production	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state of the company and increase in the state of the company and increase in the company and increase incre	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a comp	naterials, requirer a caronador risks not high margin, in the demands of diversity on the power tents which takes of the following the power tents which takes of the power tents which takes of the following the following the following the following the following tents of the	ient of geographic by being learning products, focus on rise industries like cost, being near to care of the present is, Loan from any by the Company by the Company. 1104.44 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh erest rate p.a. 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %	8. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Total Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Other Current Liabilities Trade Tayables Other Current Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Walted cash flow statement Usulars CASH-ELOW FROMOPERA TING ACTIVITIES CASH-ELOW FROM INVESTING FROM IN	37 10 11 6 2 9 31 11 17 26 31 Year ended 31st Mar (3 (4) has been prepared u low. has been prepared u the last three years ar	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.39 31519.25 20 20 20 20 2174.53 3350.16 954.47 3141.41 3141.56 3252.62 954.61 3578.54 82.90 —2283.23 3424.64 7475.03 3428.55) 3430.41) 60.68	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72 par ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out any.	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 199.56 199.56 (Rs. in Lakins Year ended 31st March 202 4609; (2426.12 (2211.32 33.5) in Indian Accounting Standa			
dentified the risks relating to presence for growth and of presence for growth and of chanufacturer of high quality effective procurement of pole exitie. FMCG food, paper, produstries utilizing the compand future production capacity of the production of default and (1). Statutory dues (2). Debenture and intel (3). Loan from any ban interest thereon. PARTICULARS OF THE CONTROL O	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state of the company and increase in the state of the company and increase in the company and increase incre	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a comp	naterials, requirer earlors and residence of the second risks of high margin, in the demands of dividence of the second risks of the power events which takes of the second risks of the s	ent of geographics, focus on the being leading products, focus on trise industries like tost, being near to tare of the present s, Loan from any by the Company. 1104.44 Lakh 1104.44 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh 10 % 10 % 10 feposits will bihareholders and re interest. Interest.	8. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (d) (e) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forovisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Total Roman Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Roman Liabilities Total Liabilities Total Roman Liabilities To	37 10 111 6 2 9 3 11 17 26 37 Year ended 31st Mar (3 (4) has been prepared unlike the prepared	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.39 3151.25 2.00 3174.53 3350.16 954.76 3141.41 3141.41 3150.62 325.62 325.62 325.62 325.62 325.62 325.62 325.62 326.62 327.62	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 —6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 199.56 199.56 (Rs. in Lakhs 133108.42 (Rs. in Lakhs 122418.31 33108.42 (Rs. in Lakhs 12426.12 (2211.32 33.5			
resence for growth and of resence for growth and of chanufacturer of high quality flective procurement of policy and street process. FMCG food, paper, p dustries, FMCG food, paper, p dustries, FMCG food, paper, p dustries utilizing the compand future production capacity of the control of th	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state of the company and increase in the state of the company and increase in the company and increase incre	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular of the company has not Issued a Molecular of the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Period in years Minimum (1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 1 1 2,00,000 1 2 2,00,000 1 1 2 2,00,000 1 2 2 2,00,000 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	alterials, requirer a drossal frisk, requirer to eadoresal frisk, no fi high margin pi to demands of divo save the power usents which takes of the same the power to for the same the power to the same t	ent of geographic, focus on the both of the present in the present	(d) AA (d	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forovisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Total Current Liabilities Other Funancial Liabilities Total Current	37 10 11 6 2 9 3 11 17 26 37 Year ended 31st Mar (3 (4) (6) (6) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 317.34.39 3050.39 3050.16 95.47 1141.41 1141.56 10525.62 10	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.84 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 11571.20 24675.29 34054.72 tear ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out any.	33108.42 316.00 7374.11 7890.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9369.98 2330.38 737.05 199.56 19363.24 25418.31 33108.42 (Ra. in Lakina Year ended 31st March 202 4609.1 (2428.12 (2213.3) 33.5 in Indian Accounting Standa			
renneed the nisks relating tressence for growth and of chanufacturier of high quality flective procurement of you public. FMCG food, paper, publisher publisher food food food food food food food foo	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state of the company and increase in the state of the company and increase in the company and increase incre	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to me etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Roself of the Company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Period in years Minimum 1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 Interest will be payable half accepted in multiples of Rs. employees of the company shall will be paid by cheque/ warrant first named depositor. on Scholul depositor's risk. Payments shou cheque/ bank draft drawn in faw 4t Ahmedabad The amount of de 4	alterials, requirem eaforesaid risks not high margin is to demands of dive os save the power events which takes of the save to find the save the remainder of the save t	ient of geographic by being leading products, focus on rise industries like bost, being near to tare of the present is, Loan from any by the Company. 1104.44 Lakh 1104.44 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh erest rate p.a. 10 % 10 % 10 % 10 ferposits will be shareholders and interest, Interes favour of the sole will be mailed at the ans of A/c payestries Ltd., payable for renewed point or renewed point.	8. 1 (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Provisions Current Liabilities Trade Payables Other Current Liabilities Trade Liabilities Trade Payables Other Current Liabilities Trade Liabilities Total Liabilities WASHEOW FROM PROMOPERA TINGACTIVITIES WASHEOW FROM INVESTING ACTIVITIES WASHEOW FROM INVESTING TOTAL INVESTING ACTIVITIES WASHEOW FROM INVESTING TOTAL INV	37 10 11 6 2 9 31 11 17 26 31 Year ended 31st Mar Year ended 31st Mar (3 (4) Low. Low. Low. Low. Low. Low. Low. Low	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 315.01 316.00 31734.39 315.01 316.00 315.00 316.00 31734.30 316.00 316.00 31734.30 316.00 316.00 31734.30 316.00	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72 par ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) direct method* as set out any.	33108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 1995.66 19363.24 25418.31 33108.42 (Rs. in Lakhs Year ended 31st March 202 4609 (2426.12 (2211.32 33.5) in Indian Accounting Standa			
resence for growth and of resence for growth and of chanufacturer of high quality flective procurement of policy and street process. FMCG food, paper, p dustries, FMCG food, paper, p dustries, FMCG food, paper, p dustries utilizing the compand future production capacity of the control of th	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state of the company and increase in the state of the company and increase in the company and increase incre	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflur. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a company has not interest will be payable half accepted in multiples of Rs. employees of the company shall will be paid by chequely warrant first named depositor on Schodul depositor bank draft drawn in fava at Ahmedabad. The amount of deposits being surrendered disposits being surrende	naterials, requirer to a dorsaid risks not high margin, in the demands of dive save the power usents which takes of the following the save the power usents which takes of the save the following the save the following the save the save the power users and the save	ient of geographic popular in the property of the present of the p	B. (a) (b) (c) (d) (d) (A) (d) (A) (A) (d) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forovisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Total Non Current Liabilities Other Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Total Current Liabilities Total Liabilities Total Current Liabilities Total Current Liabilities Total Liabilities Total Current Liabilitie	37 10 11 6 2 9 9 31 11 17 26 31 Year ended 31st Mar Year ended 31st Mar Year ended 31st Mar in the last three years an AT- payment of deposits ac emselves fully with restimated future financial pany will not become in	316.00 316.00 316.00 31734.39 050.39 050.39 050.39 174.53 3350.16 95.47 141.41 141.56 1525.62 954.61 1578.54 82.90 174.53 1424.64 17475.03 1424.64 17475.03 1428.55) 1430.41) 1440.60	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 117571.20 24675.29 34054.72 tear ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out ary. t on the profits and the reserve before or after the commany.	33108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 199.56 24 25418.31 33108.42 (Rs. in Lakins Year ended 31st March 202 4609; (2426.12 (2211.32 33.5) in Indian Accounting Standa			
pentitied the nsks relating to researce for growth and of chanufacturer of high quality flective procurement of politicities. PMOG, food, paper, podustries, PMOG, food, paper, podustries utilizing the compand fulure production capacille. PMOG, food, paper, podustries utilizing the compand fulure production capacille. Details of default, includuration of default and (1) Statutory dues. (2) Debenture and intel (3) Loan from any ban interest thereon. PARTICULARS OF TH.) Date of passing of fea authorizing the invitation of deposits of the passing of resident production. (1) Amount which the composition of deposits as per the Acidemate there under. The aggregate of depoding of the immediately. The aggregate of depoding of the Circular or circular. Amount of deposit repidents of raising of depo	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery many's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do present status, in repayment of erest thereon mix or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME board resolution. HE DEPOSIT SCHEME board resolution in the general meeting tion of such deposits, whether secured or unsecured, company can raise by way of cct and the rules board and the rules board in such deposits. Sosits actually held on the last lay preceding financial year, sosits held on date of issue of ir in the Form of Advertisement. Soposed to be raised. Dayable within the next twelve months, possits, Duration, Rate of Interest,	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a company has not included a company has not included a company has not issued a company has not included a company has not issued a company has not included a company h	naterials, requirer a doresid risks not high margin, in the demands of divo save the power reents which takes of the save the power reents which takes of the save the save the power reents which takes of the save the save the power reents which takes of the save t	enet of geographics, focus on by being leading products, focus on irrse industries like tost, being near to tare of the present sare of the present sare of the present sare of the present to the present of the present sare of the present by the Company. 1104.44 Lakh 1104.44 La	8. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forovisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Total Repayables Other Financial Liabilities Total Current Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Current Liabilities Total Current Liabilities Total Current Liabilities Total Liabilities Total Current Liabilities Total Liabilities Total Current Liabili	37 10 11 66 2 9 31 11 17 26 31 Year ended 31st Mar in the last three years ar IAT- payment of deposits ac emselves fully with res timated future financial pany will not become in visions of the car and	316.00 316.00 316.00 31734.39 050.39 1519.25 2.00 174.53 3350.16 95.47 141.41 141.56 1525.62 954.61 1578.54 82.90	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.84 7104.09 7789.02 7799.07 772.77 943.61 21.33 51.40 11571.20 24675.29 34054.72 tear ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out ary. t on the profits and the research of the company, they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there underly they will be a in a period of one year from det there is a pure a period of the period o	33108.42 316.00 7374.11 7890.11 4771.27 2 20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 199.56 199.56 25418.31 33108.42 (Rs. in Lake) Year ended 31st March 202 4609.1 (2428.12 (2211.32) 33.5 In Indian Accounting Standa			
renneed the nisks relating tressence for growth and of chanufacturier of high quality flective procurement of you public. FMCG food, paper, publisher publisher food food food food food food food foo	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery many's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do present status, in repayment of erest thereon mix or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME board resolution. HE DEPOSIT SCHEME board resolution in the general meeting tion of such deposits, whether secured or unsecured, company can raise by way of cct and the rules board and the rules board in such deposits. Sosits actually held on the last lay preceding financial year, sosits held on date of issue of ir in the Form of Advertisement. Soposed to be raised. Dayable within the next twelve months, possits, Duration, Rate of Interest,	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Period in years Minimum (1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 3 2,00,000 3 2,00,000 3 2,00,000 3 2,0	alterials, requirer a doresaid risks not high margin is to demands of dive os ave the power reents which takes of the statutory due interest thereon any debentures. Rs R	ent of geographic, focus on the best of the present in the present	B. 1 (a) (b) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Provisions Current Liabilities Trade Payables Other Funancial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Trade Payables Other Current Liabilities Trade Tax Liabilities Trade Tax Liabilities Total Liabiliti	100 · 111 66 29 99 31 11 17 26 31 Year ended 31st Mar Year ended 31st Mar Year ended 31st Mar (3) (4) been regrouped where the last three years are the last three years are the last three financial impaints with the last three financial impaints with the last three th	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 350.16 954.47 3141.41 3141.56 31525.62 954.61 31578.54 82.90 4774.03 3428.65) 3428.65) 3428.64 475.03 476.03 4774.03 4774.03 4774.03 4774.03 4774.03 4774.03 4774.03 4775.03	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.84	33108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 199.56 199.56 24 25418.31 33108.42 (Rs. in Lakha Year ended 31st March 202 4(2428.12 (2211.32 33.5 in Indian Accounting Standa			
resence for growth and of resence for growth and of chanufacturer of high quality flective procurement of policy and street process. FMCG food, paper, p dustries, FMCG food, paper, p dustries, FMCG food, paper, p dustries utilizing the compand future production capacity of the control of th	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery many's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do present status, in repayment of erest thereon mix or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME board resolution. HE DEPOSIT SCHEME board resolution in the general meeting tion of such deposits, whether secured or unsecured, company can raise by way of cct and the rules board and the rules board in such deposits. Sosits actually held on the last lay preceding financial year, sosits held on date of issue of ir in the Form of Advertisement. Soposed to be raised. Dayable within the next twelve months, possits, Duration, Rate of Interest,	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to me etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Rs. 33865.54 Lakh as per item d Rs. 788.66 Lakh Period in years Minimum 1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 Interest will be payable half accepted in multiples of Rs. employees of the company shall will be paid by cheque/ warrant first named depositor. on Scholula depositor is ns. Payments shou cheque/ bank draft drawn in faw at Ahmedabad. The amount of deposits being surrendered dispositor sinch shall be valid a jointly by all in case of stipulation them. Deposit receipt duly discreach the company fortnight bet renewal, fresh application form said discharged receipt. Reneval.	alterials, requirer a doresaid risks not high margin is to demands of dive os save the power suchs which takes of the same the sa	ient of geographics, focus on the book of the present in the present is, Loan from any by the Company. 1104.44 Lakh 1104.44 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh 10 % 10 % 10 renewed on the yole will be shareholders and re interest. Italians of Alc payes the shareholders and re interest. Italians of Alc payes the shareholders and re interest. Italians of Alc payes the state of the shareholders and re interest. Italians of Alc payes the state of the shareholders and re interest. Italians of Alc payes the state of the shareholders and re interest. Italians of the sole will be mailed at the young the shareholders and re interest. Italians of the sole will be any of the sole will	B. 1 (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forovisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Total Value (Net) Total Current Liabilities Total Liabilitie	37 10 11 11 12 26 31 Year ended 31st Mar in the last three years ar IAT- payment of deposits ac emselves fully with res timated future financial pany will not become in visions of the Act ar visions of the Act ar visions of the Act ar visions of the Act are elected in the contract of the commencement of the commencement of the Act are so (Acceptance of Dej	316.00 316.00 316.00 316.00 316.09 31	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.84	33108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2339.38 737.05 199.56 199.56 199.56 24 25418.31 33108.42 (Rs. in Laking Variance of the Company And Indian Accounting Standard Stan			
pentitied the nsks relating to researce for growth and of chanufacturer of high quality flective procurement of politicities. PMOG, food, paper, podustries, PMOG, food, paper, podustries utilizing the compand fulure production capacille. PMOG, food, paper, podustries utilizing the compand fulure production capacille. Details of default, includuration of default and (1) Statutory dues. (2) Debenture and intel (3) Loan from any ban interest thereon. PARTICULARS OF TH.) Date of passing of fea authorizing the invitation of deposits of the passing of resident production. (1) Amount which the composition of deposits as per the Acidemate there under. The aggregate of depoding of the immediately. The aggregate of depoding of the Circular or circular. Amount of deposit repidents of raising of depo	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery many's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do present status, in repayment of erest thereon mix or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME board resolution. HE DEPOSIT SCHEME board resolution in the general meeting tion of such deposits, whether secured or unsecured, company can raise by way of cct and the rules board and the rules board in such deposits. Sosits actually held on the last lay preceding financial year, sosits held on date of issue of ir in the Form of Advertisement. Soposed to be raised. Dayable within the next twelve months, possits, Duration, Rate of Interest,	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not issued a market of the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public market of the company shall will be paid by chequel warrant first named depositor in six. Payments shou chequel bank draft drawn in favia at Ahmedabad. The amount of depositor which shall be valid a jointly by all in case of stipulation them. Deposit receipt duly discreach the company fortinght be renewal, fresh application form said discharged receipt. Renewompany fortinght becompany. Repayment of depositor depositor company fortinght becompany. Repayment of depositor depositor formals discharged receipt. Renewal, fresh application form said discharged receipt.	naterials, requirer to adoressing frequency of the second risks of high margin, in the demands of divide and the second risks of the second risks	ient of geographics, focus on by being leading products, focus on care of the present is easily being near to care of the present is, Loan from any by the Company. 1104.44 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh 2761.10 Lakh 3865.55 L	8. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Trotal Variabilities Trade Payables Other Funancial Liabilities Trotal Current Liabilities Trotal Liabilities Total	100	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.39 3174.53 3350.16 954.47 3141.41 3141.56 3152.56.2 954.61 3174.53 3182.62 3141.61 3182.62 3182.63	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 ——————————————————————————————————	3108.42 316.00 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.95 199.56 19363.24 25418.31 33108.42 (Rs. in Lakim' Year ended 31st March 202 4669 1 (2426.1) (2413.3) 33.56 in Indian Accounting Standa			
resence for growth and of resence for growth and of chanufacturer of high quality flective procurement of policy and street process. FMCG food, paper, p dustries, FMCG food, paper, p dustries, FMCG food, paper, p dustries utilizing the compand future production capacity of the control of th	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery many's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do present status, in repayment of erest thereon mix or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME board resolution. HE DEPOSIT SCHEME board resolution in the general meeting tion of such deposits, whether secured or unsecured, company can raise by way of cct and the rules board and the rules board in such deposits. Sosits actually held on the last lay preceding financial year, sosits held on date of issue of ir in the Form of Advertisement. Soposed to be raised. Dayable within the next twelve months, possits, Duration, Rate of Interest,	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3188.16 Lakh Rs. 3188.16 Lakh Period in years Minimum 1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 Interest will be payable half-accepted in multiples of Rs. employees of the company start Ahmedabad. The amount of depositor winch shall be valid a company former shall be valid a control of the position of the company former shall be valid a control of the position of the company formight between the medical company formight between walf resh application form sald discharged recept). Renework Repayment of depositor company, Repayment of depositacount payee cheque drawn in a scheduled bank payable at a sche	materials, requirem ea doresaid risks not high margin piecets which takes of the demands of divide save the power suchs which takes of the save the following the save the following the save the following the save the following the save the save the following the save the s	ient of geographic, by being leading products, focus on rise industries like bost, being near to raire of the present is, Loan from any by the Company. 1104.44 Lakh 1104.44 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh 2761.10 Lakh 3865.55 Lakh	8. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Provisions Current Liabilities Foromings Trade Payables Other Financial Liabilities Total Liabilities Provisions Current Liabilities Total Equity and Liabilities Walled Cash flow statement (culars) Total Equity and Liabilities Total Equity and Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Liabilities Total Equity and Liabilities Total Liabilities Total Equity and Liabilities Total Cash flow statement (culars) Total Equity and Liabilities Total Equity and Liabilities Total Equity and Liabilities Total Equity and Liabilities Total Liabilities Total Equity and Liabilities Total Liabilities Total Equity and Liabilities Total Equity and Liabilities Total Lia	37 100 111 66 22 99 31 111 26 31 Year ended 31st Mar In a special	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.39 31519.25 2.00 3174.53 3250.16 95.47 3250.62 95.46 3252.62 95.46 3290	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72 tar ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out ary. It on the profits and the reserve or before or after the commandation of the company, they will be a in a period of one year from dether under; of deposits is guaranteed by magnies Act 2013 will be a in a period of one year from dether under; of deposits is guaranteed by magnies Act 2013 will be a sin a conditions and period of one year from dether under; of deposits is guaranteed by magnies Act 2013 will be a sin and conditions and period of control of advice the company of the company of the period of the company of the period of	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 1999.56 25418.31 33108.42 (Rs. in Lakhe Year ended 31st March 202 (AZE 12 (AZE			
resence for growth and of chanulacturer of high quality flective procurement of politicities. PMCG food, paper, pdustries. PMCG food, paper, pdustries utilizing the compand future production capacity of the paper of the participation of default, includuration of default, includuration of default and (1) Statutory dues (2) Debenture and interest thereon. PARTICULARS OF TH. Date of passing of box. Date of passing of resultant of passing of resultant or participation. The aggregate of depoday of the immediately. The aggregate of depoday of the immediately. The aggregate of depoday of the immediately. Amount of deposit programmed and passing of depoding or circular or circular. Amount of deposit programmed of payment and resultant participation of payment and resultant payments.	to increased competition, decrease in to the increased competition, decrease in the state products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery many's products, and installing modern sociles of the company etc. luding the amount involved, do present status, in repayment of erest thereon mix or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME board resolution. HE DEPOSIT SCHEME board resolution in the general meeting tion of such deposits, whether secured or unsecured, company can raise by way of cct and the rules board and the rules board in such deposits. Sosits actually held on the last lay preceding financial year, sosits held on date of issue of ir in the Form of Advertisement. Soposed to be raised. Dayable within the next twelve months, possits, Duration, Rate of Interest,	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to me etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Rs. 3138.16 Lakh Rs. 3865.54 Lakh as per item d Rs. 788.86 Lakh Period in years Minimum 1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 Interest will be payable half accepted in multiples of Rs. employees of the company shall will be paid by cheque/ warrant first named depositor. on Schuld depositor's risk. Payments shou cheque/ bank draft drawn in favu at Ahmedabad. The amount of deposits being surrendered didepositor's risk. Payments shou cheque/ bank draft drawn in favu at Ahmedabad. The amount of deposits being surrendered didepositor's risk. Payments shou cheque/ bank draft drawn in favu at Ahmedabad. The amount of deposits receipt duly disc. The company fortnight between well fresh application form said discharged receipt. Renex company, Repayment of depositor at his risk. Proposed Date of opening of the Proposed Date of opening of th	alterials, requirem ea doresaid risks not high margin is to demands of divo save the power suchs which takes of the same the power such that the same that the	ent of geographics, focus on rise industries like toot, being leading products, focus on rise industries like toot, being near to tare of the present is. Loan from any by the Company. 1104.44 Lakh 1104.44 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh 2761.10 Lakh 3865.54 Lakh 2761.10 Lakh 3865.55 Lakh 2761.10 Lakh 3865.55 Lakh 2761.10 Lakh 3865.56 Lakh 2761.10 Lakh 3865.57 Lakh 3865.57 Lakh 2761.10 Lakh 3865.57 Lakh 2761.10 Lakh 3865.57 Lakh 3865.57 Lakh 2761.10 Lakh 3865.57 Lakh 2761.10 Lakh 3865.57 Lakh 3865.57 Lakh 2761.10 Lakh 3865.57 Lakh 3865.57 Lakh 2761.10 Lakh 3865.57 Lakh 3865	8. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (e) (e) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (f) (e) (e) (f) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Current Liabilities Provisions Current Liabilities Other Current Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Other Current Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Total Liabilities	100	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.39 31519.25 2.00 3174.53 3350.16 954.47 3141.41 3141.56 525.62 954.61 578.54 82.90 4175.03 316.00 3174.53 3174.54 3175.03 3174.54 3175.03 3174.54 3175.03 3175	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7983.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72 tar ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out any. t on the profits and the reserve the company, they will be a in a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed b impanies Act, 2013 will be reserved the company, they will be a in a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed b impanies Act, 2013 will be reserved and conditions and periods; 2014 and until they are hance to withdraw deposits or cursular in the form of advu with other unsecured law with other unsecured.	33108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9369.98 2330.38 737.05 199.56 199.56 199.56 199.56 199.56 199.56 in Indian Accounting Standard Accounti			
Proposed time schedule Scheme and the time per Proposed time schedule Scheme and the time per	to increased competition, decrease in the hange in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery any's products, and installing modern soibles of the company etc. luding the amount involved, of present status, in repayment of erest thereon mix or financial institution and HE DEPOSIT SCHEME board resolution. Solution in the general meeting tion of such deposits, whether secured or unsecured. company can raise by way of ct and the rules way of ct and the rules way of ct and the rules obsits actually held on the last preceding financial year. Solution of such deposits, whether secured or unsecured. Company can raise by way of ct and the rules way of ct and the rules obsits actually held on the last preceding financial year. Solution of Advertisement. Soposed to be raised. Solution, Rate of Interest, epayment.	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 318.16 Lakh Rs. 3865.54 Lakh as per item d Rs. 788.86 Lakh Period in years Minimum (1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 Interest will be payable half accepted in multiples of Rs. employees of the company shall will be paid by chequel warrant first named depositor's risk. Payments shou chequel bank draft drawn in fav at Ahmedabad. The amount of depositor which shall be valid a depositor's risk. Payments shou chequel bank draft drawn in fav at Ahmedabad. The amount of depositor which shall be valid a depositor's hich shall be valid at a sheduled bank payable at I depositor at his risk. Proposed Date of opening of the advertisement will be Valid till 31 depositor at his risk.	alterials, requirer a doreasid risks not high margin is to demands of divo save the power reents which takes of the demands of the save the power reents which takes of the save the power reents which takes of the save the power reents which takes of the save the s	ient of geographic, by being leading products, focus on risre industries like tost, being near to tare of the present is, Loan from any by the Company. 1104.44 Lakh 1104.45 Lakh 1104.46 Lakh 1104.46 Lakh 1104.46 Lakh 1104.47 Lakh 1104.47 Lakh 1104.48 Lakh 1104.48 Lakh 1104.48 Lakh 1104.48 Lakh 1104.49	B. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Borrowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Mon Current Liabilities Provisions Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Current Liabilities Other Current Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Other Current Liabilities Trade Tayables Other Tax Liabilities Total Equity and Liabilities WASHELOW FROM PROMENTING ACTIVITIES WASHELOW FROM MYESTING	Year ended 31st Mar It is the self-self-self-self-self-self-self-self-	316.00 316.00 31734.39 31519.25 320 316.00 3734.39 31519.25 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.84 7104.09 7789.02 7799.07 772.77 943.61 21.33 514.00 17571.20 24675.29 34054.72 tear ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out ary. t on the profits and the reserve to the company, they will be a in a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed by manaires Act, 2013 will be resident on the company, they will be a in a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed by manaires Act, 2013 will be resident on the company, they will be a in a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed by manaires Act, 2013 will be resident on the companies Act, 2013 will be a sand conditions and periods, 2014 and until they are hance to withdraw deposits in circular in the form of advertisement with the Residestra or Central Source	3108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 1995.6 19363.24 25418.31 33108.42 (Rs. in Labilities as a since decided a first march 2024 (2426.12 (2211.3) 33.5 in Indian Accounting Standard and the same as the company and that they are able to meet its liabilities as a in the date of issue of the circuity the Central Government, and of such earlier deposits as a repeat of the yshall be treated a sufficient of the company, without any penalty, vertiliament, without any penalty, vertiliament, without any penalty, vertiliament, was present. The Government, was present. The Francisco of the company, visiting the penalty was present. The Francisco of the company, visiting the penalty was present. The Francisco of the company, visiting the penalty penalty penalty.			
Proposed time schedule Proposed time schedule The aggregate of deposits as per the Accumand the circular or circular The aggregate of deposits per the Accumand the circular or circular Amount of deposit per the Accumand to the circular or circular The aggregate of deposits as per the Accumand to the circular or circular Amount of deposits repired to the circular or circular Amount of deposits repired to the circular or circular Amount of deposits repired to the circular or circular Amount of deposits repired to the circular or circular or circular Amount of deposits repired to the circular or circular	to increased competition, decrease in the change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, any's products, and installing modern sociles of the company etc. ludding the amount involved, do present status, in repayment of the company etc. ludding the amount involved, or financial institution and the DEPOSIT SCHEME coard resolution. HE DEPOSIT SCHEME coard resolution. In the deposits. In the deposits continued in the coard or unsecured. It is such deposits. In the company can raise by way of coard in the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceded the preceding financial year. In the form of Advertisement is the first of the preceding financial year. In the first of th	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3865.54 Lakh as per item d Rs. 788.86 Lakh Period in years Minimum (1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 Interest will be payable half accepted in multiples of Rs. employees of the company shall will be paid by cheque/ warrant first named depositor iss. Payments shou cheque/ bank draft drawn in fav at Ahmedabad. The amount of depositor which shall be valid a depositor's ris. Payments shou cheque/ bank draft drawn in fav at Ahmedabad. The amount of depositor which shall be valid a gionity by all in case of stipulation them. Deposit receipt. Renevectompany, Repayment of depositor company, fortnight be renewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight be renewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight be renewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight berenewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight berenewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight berenewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight berenewal first named depositor at his risk. Proposed Date of opening of the advertisement will be valid till 3t the depositor at his risk.	alterials, requirer a caronsaid risks, not high margin, to a demands of divo save the power reents which takes of the demands of the save the power reents which takes of the save the power reents which takes of the save the power reents which takes of the save the	ient of geographic, focus on the both of the present instruction of the sole will be maintained in the present instruction of the sole will be maintained in the present instruction of	B. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Trade Payables Other Current Liabilities Trade Tayables Other Current Liabilities Trade Payables Other Current Liabilities Total Liab	100	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7983.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72 tar ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out any. t on the profits and the reserve the common affairs and prospects of the he company, they will be a in a period of one year from dether under; of deposits is guaranteed b impanies Act, 2013 will be reserved the company, they will be a in a period of one year from dether under; of deposits is guaranteed b impanies Act, 2013 will be reserved the company of	3106.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 ————————————————————————————————————			
resence for growth and circescence for growth and circular for growth and c	to increased competition, decrease in the change in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on paints, pharmaceuticals, confectionery, any's products, and installing modern sociles of the company etc. ludding the amount involved, do present status, in repayment of the company etc. ludding the amount involved, or financial institution and the DEPOSIT SCHEME coard resolution. HE DEPOSIT SCHEME coard resolution. In the deposits. In the deposits continued in the coard or unsecured. It is such deposits. In the company can raise by way of coard in the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceding financial year. In the form of Advertisement. It is preceded the preceding financial year. In the form of Advertisement is the first of the preceding financial year. In the first of th	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3865.54 Lakh as per item of Rs. 388.86 Lakh Period in years Minimum 1 2,00,000 2 2,00,000 3 2 2,00,000 Interest will be payable half accepted in multiples of Rs. employees of the company shall will be paid by cheque/ warrant first named depositor is Ns. Payments shou cheque/ bank draft drawn in fav at Ahmedabad. The amount of depositor which shall be valid a depositor's in case of stepulation them. Deposit receipt Lenev company, Repayment of depositic reach the company fortnight be renewal, fresh application form said discharged receipt. Renev company, Repayment of depositor at his risk. Proposed Date of opening of the advertisement will be valid till 3 the 82 rd Annual General Meeting To meet the working capital required.	alterials, requirer a cardonal risks, not high margin is a demands of dive save the power reents which takes of the demands of the save the power reents which takes of the save the power reents which takes of the save the power reents which takes of the save the save the power reents which takes of the save	ient of geographics, focus on the positive state p.a. 1104.44 Lakh 1104.45 Lakh 1104.46 Lakh 1104.46 Lakh 1104.46 Lakh 1104.47 Lakh 1104.47 Lakh 1104.48 Lakh 1104.48 Lakh 1104.49 Lakh 110	B. 1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Trade Tayables Other Financial Liabilities Trade Tayables Other Financial Liabilities Total Equity and Liabilities Walther Liabilities Total Equity and Liabilities Total Equity and Liabilities Total Liabilities Total Equity and Liabilities To	100	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.84 7104.09 7789.02 7799.07 772.77 943.61 21.33 51.40 11571.20 24675.29 34054.72 tear ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out ary. t on the profits and the research of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed by manager from dethere under: of deposits is guaranteed is and oundrings and outprofit in the form of advertisement with the Resegistrar or Central Governess of any deposit schemon expressed in the circular needs.	3108.42 316.00 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 199.56 1996.24 25418.31 33108.42 (Rs. in Lakhar Year ended 31st March 202 4609.1 (2428.12 (211.3) 33.5 in Indian Accounting Standar serves of the company Nil encement of the Act or payme at the date of issue of the circuity of the company and that they are to the date of issue of the circuity of the central Government of the Act or payme at the date of issue of the circuity of the central Government of the Act or payment of the central Government of the Act or payment of the central Government of the Act or payment of the central Government of the Act or payment of the central Government of the Act or payment of the central Government. The Replanar or Central Government of the Act or payment of the central Government of the Act or payment of the central of the cen			
resence for growth and of case	to increased competition, decrease in to thange in environment regulations. Thy starch products, consistent focus on policy for raw materials and its storage, paints, pharmaceuticals, confectionery, any's products, and installing modern socies of the company etc. luding the amount involved, do present status, in repayment of increases thereon ink or financial institution and the DEPOSIT SCHEME coard resolution. HE DEPOSIT SCHEME coard resolution in the general meeting tion of such deposits. In whether secured or unsecured. company can raise by way of cit and the rules coard in the Form of Advertisement. Spoosed to be raised, payable within the next twelve months. Coats, Duration, Rate of Interest, repayment.	demand, scarcity / quality of raw in emanagement has minimized the capacity expansion for production diversified product portfolio to mee etc., installation of biogas engine to state-of-the-art facilities to treat efflut. There is no default in payment bank or financial institution and The company has not Issued a The company has not Issued a Molecular and the company has not Issued a Molecular and the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from shareholders Amount which the company can raise from public Total Rs. 2886.41 Lakh Rs. 3865.54 Lakh as per item d Rs. 788.86 Lakh Period in years Minimum (1 2,00,000 2 2,00,000 3 2,00,000 Interest will be payable half accepted in multiples of Rs. employees of the company shall will be paid by cheque/ warrant first named depositor iss. Payments shou cheque/ bank draft drawn in fav at Ahmedabad. The amount of depositor which shall be valid a depositor's ris. Payments shou cheque/ bank draft drawn in fav at Ahmedabad. The amount of depositor which shall be valid a gionity by all in case of stipulation them. Deposit receipt. Renevectompany, Repayment of depositor company, fortnight be renewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight be renewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight be renewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight berenewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight berenewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight berenewal, fresh application form said discharged receipt. Renevectompany fortnight berenewal first named depositor at his risk. Proposed Date of opening of the advertisement will be valid till 3t the depositor at his risk.	alterials, requirer a drorsal drisks, requirer a drorsal drisks, not high margin processes of the power reents which takes of the statutory due dinterest thereon any debentures. Rs R	ent of geographics, focus on rise industries like tost, being leading products, focus on care of the present care of the present per products, focus on the present products of the present present present products of the present pr	8.1 (a) (b) (c) (d) (d) (d) (a) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	Total Assets Equity and Liabilities Equity Equity Share Capital Other Equity Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Forowings Other Financial Liabilities Provisions Deferred Tax Liabilities (net) Other Non Current Liabilities Total Non Current Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Financial Liabilities Borrowings Trade Payables Other Financial Liabilities Other Financial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Trade Payables Other Financial Liabilities Trade Payables Other Current Liabilities Trade Tayables Other Current Liabilities Trade Payables Other Current Liabilities Total Liab	100	316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 31734.39 3050.	34054.72 316.00 9063.43 9379.43 5134.40 2.20 122.85 1844.64 7104.09 7789.02 7993.07 772.77 943.61 21.33 51.40 17571.20 24675.29 34054.72 tar ended 31st March 2021 3538.77 (2063.97) (1429.69) 78.61 direct method* as set out ary. t on the profits and the reserve to the company, they will be a in a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed by manner to the company, they will be a in a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed by manner to the company, they will be a in a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed by manner to the companies Act 2013 will be a sin a period of one year from de there under; of deposits is guaranteed by manner to the there are so and conditions and periods, 2014 and until they are hance to withdraw deposits is chance to withdraw deposits chances of any deposit scheme and expressed in the circular news.	33108.42 316.00 7374.11 7690.11 4771.27 2.20 171.07 1110.53 6055.07 6706.27 9389.98 2330.38 737.05 1999.56 19333.24 25418.31 33108.42 (Rs. in Lakhs Year ended 31st Marc Lakh (2711.32 4609.1 (24/5.12 (2711.32 4609.1 (24/5.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (24/6.12 (2711.32 4609.1 (2711.			